



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 26, 2003 (वैशाख 06, 1925)

No. 17]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 26, 2003 (VAISAKHA 06, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से
सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry
of Defence]

(थल सेना विभाग)

(ले० के पद पर 12 दिसम्बर 1998)

सं. 249, दिनांक 20.3.03--राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं।

नियमित सेना

इन्फैंट्री

सिख रेजीमेन्ट

नायब सूबेदार (धार्मिक शिक्षक) के रैंक में

श्री बलदेव सिंह (जे सी 499120 एम), 27 जुलाई, 02

दिवाकर

अवर सचिव

(सेना शाखा)

सं. 250, दिनांक 26.3.03--राष्ट्रपति निम्नलिखित सहर्ष नियुक्ति करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

निम्नलिखित अधिकारियों को भारत सरकार के राजपत्र, जो दिनांक 22 अप्रैल, 2000 को प्रकाशित हुआ है, में सम्मिलित किया जाता है:-

मृगंका पॉल (आई सी-58233 एम) ई एम ई ज्येष्ठता बृज भूषण मिश्रा (आई सी-58232 के) आर्टी के नीचे सचिन शिवराज रेन्डले (आई सी-58244 वाई) आर्टी ज्येष्ठता एस कार्थिक चैकटेश्वरन (आई सी-58243 डब्ल्यू) इन्फैंट्री सामबिट शतादल पट्टाजोशी (आई सी-58287 एन) आर्टी ज्येष्ठता समिन्दर सिंह (आई सी-58286 एल) मेक के नीचे भारत सिंह रावत (आई सी-58324 डब्ल्यू) आर्म्ड कोर और मानव कुमार शर्मा (आई सी-58325 वाई) ए ओ सी ज्येष्ठता विश्वास बाहुखण्डी (आई सी-58323 एन) इन्फैंट्री के नीचे प्रवीण मोती रामजी गनोरकर (आई सी-58382 ए) आर्टी ज्येष्ठता मनोज कुमार सिंह (आई सी-58381 एक्स) इन्जीनियर के नीचे हरिश चन्द्रा पन्त (आई सी-58414 एक्स) ई एम ई और अक्षय कालिया (आई सी-58415 ए) आर्टी ज्येष्ठता जोगेन्द्र नाथ शर्मा (आई सी-58413 पी) सिग्नल के नीचे, प्रवीण तोमर (आई सी-58420 एल) ए एस सी ज्येष्ठता धर्मवीर सिंह (आई सी-58419 डब्ल्यू) इन्फैंट्री के नीचे,

गुप्ता मनीष (आई सी-58425 के) आर्टी नवनीत कुमार (आई सी-58426 एम) ई एम ई और कौशिक रे (आई सी-58427 पी) आर्टी ज्येष्ठता सुकबीर ओजला (आई सी-58424 एफ) सिंगल के नीचे रौलेन्दर कुमार गुप्ता (आई सी-58431 एक्स) आर्टी अमित सोनी (आई सी-58430 पी) इन्फेन्ट्री के नीचे, सन्तोष विनसेन्ट (आई सी-58434 एल) इन्फेन्ट्री ज्येष्ठता तनवीर सिंह मान (आई सी-58433 एच) इन्फेन्ट्री के नीचे, आशीष चन्द्रा (आई सी-58437 बाई) इन्फेन्ट्री ज्येष्ठता मनदूला सुनिल (आई सी-58436 डब्ल्यू) आर्टी के नीचे, राजीव नयन (आई सी-58510 एम) इन्फेन्ट्री ज्येष्ठता सत्येश यादव (आई सी-58509 एक्स) ए ओ सी के नीचे, सौमित्रा कुमार पटनायक (आई सी-58531 एच) ए डी ज्येष्ठता सिद्धार्थ शंकर सिंह (आई सी-58530 ए) ए एस सी प्रदर्शित किया जाए।

एस एस धनखण्ड
लेफ्टिनेन्ट कर्नल
सहायक सेना सचिव (एम एस 8 बी)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

नई दिल्ली, दिनांक 09.01.2003

सं. 251 दिनांक 25 मार्च, 03.-राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:-

डा० ए. आर. जेम्स को अस्थायी वैज्ञानिक 'सी' (ग्रुप 'ए') के रूप में रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा के त्रिसावस्था भौतिक प्रयोगशाला, दिल्ली (SSPL) में दिनांक 25.09.2001 से वेतनमान रु. 10000-325-15200 पर एक वर्ष की परखावधि पर।

श्री राम सिंह को अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के रूप में रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा के सैमीलैक, बैंगलोर में दिनांक 01.02.1999 से वेतनमान रु. 8000-275-13500 पर दो वर्ष की परखावधि पर।

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दर्शाये गए दिनांक से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में दो वर्ष की परखावधि पर अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के रूप में वेतनमान रु. 8000-275-13500 पर :-

नाम	स्थापना	दिनांक
कु. सी एम बुवनेश्वरी	हेमरल, पुणे,	11.07.2001
श्री परम पाल चाबरा	हेमरल, पुणे,	-वही-
श्री संदीप शर्मा	ए.आर.डी.ई., पुणे,	-वही-
श्री धर्म राज सिंह	ए. आर. डी. ई., पुणे,	-वही-
श्री नितिन वर्मा	डोल, देहरादून,	-वही-
श्री पंकज गुप्ता	आई.टी.आर., बलासोर,	-वही-
श्री अनिल कुमार	आर.डी.ई. (ई), पुणे,	-वही-
उपाध्याय		
श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल	ए.डी.ए., बैंगलोर,	29.01.1999
कुमारी वर्षा अग्रवाल	ए.डी.ए., बैंगलोर,	03.02.1999

1	2	3
श्री एक्स माईकल विलयम	जी.टी.आर. ई., बैंगलौर,	02.04.2001
श्री सतीश एन अस्तीकर	-वही-	07.02.2001
श्री प्रवीण कुमार सिंह	एन.एम.आर.एल. एडिशनल, अम्बरनाथ,	07.11.2000
कुमारी खचि श्रीवास्तव	ए.डी.ए., बैंगलौर,	01.03.2001
श्री विक्रम कानोई	सी.ए.आई.आर., बैंगलौर,	30.01.2001
कुमारी ए करुणा	-वही-	19.02.2001
श्री जी सरोज कुमार	एल.आर.डी.ई., बैंगलौर,	29.09.2000
श्री एस निलमेगम	-वही-	28.03.2000
श्री बी.ए. मूर्ति परमशिवम	सी.ए.आई.आर., बैंगलौर,	23.03.2000
श्री श्रीनाथ भट्ट बी.	ए. सी. ओ., बैंगलौर,	06.04.2000
श्री राजेश कुमार	जी.टी.आर.ई., बैंगलौर,	29.02.2000
श्री मनुज शर्मा	एल.आर.डी.ई. बैंगलौर,	23.03.2001

जे के खडवाल
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 252 दिनांक 24 मार्च, 03 निम्नलिखित को उनके सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की अवधि तक के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर का कर्नल-इन-चीफ का रैंक प्रदान किया जाता है।

जनरल एन सी विज, सेनाध्यक्ष, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली.110011
पी वी एस एम, यू वाई एस एम, ए बी एस एम, ए डी सी, 01 जनवरी 2003

सतीश वहल
ब्रिगेडियर
उपमहानिदेशक (एमएस)

सेना शाखा

सं. 253 दिनांक 25 मार्च, 2003.-राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित ए एम सी अधिकारियों को उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर के पद पर

विवेक भारती शर्मा (एम एस-13333-एस) (एम आर-07683 एफ) ए एम सी, 10.11.2001

संजय कुमार (एम आर-07771-एक्स) (एम एस-13352 डब्ल्यू) ए एम सी, 04.12.2001

ए रिता पीरकीडी (एम एस-13533-एफ) (एम आर-07595 एल)
ए एम सी, 03.06.2001

(श्रीमती) श्रीनिवासन शीवा के (एम एस-13104-ए) (एम
आर-07585 एफ) ए एम सी, 27.09.2000

कप्तान के पद पर

विशाल गौतम (एम आर-07164-वाई), ए एम सी, 18.05.1999
(कु) गागी विसवास (एम आर-07526-पी), ए एम सी, 05.02.
2002

सन्तोष कराडे (एम आर-07562-ए), ए एम सी, 05.02.2002
परिक्रित सिंह चौहान (एम आर-07646-एन), ए एम सी, 16.
07.2002

एन सुब्रमन्यम (एम आर-07654-एम), ए एम सी, 16.07.2002

फ्लाइट लेफ्टि से स्कवाड्रन लीडर के पद पर

(श्रीमती) पदमाश्री जैन (एम एस-12583-ए) (ए एफ-22480)
(एम आर-07661-एच), ए एम सी, 30.06.96, (भारत सरकार के
राजपत्र के दिनांक 10.07.99 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की
अधिसूचना के सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया
जाता है)।

के बी एन एस डोड

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक (कार्मिक)

सं. 254, दिनांक 24 मार्च, 03.--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों
को पदोन्नत करते हैं:-

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

कप्तान से मेजर

आई सी-44642 जगदीश चन्द, आर्टी, 13 जून, 1998

आई सी-48954 एस के रथ, ए ई सी, 29 अक्टूबर, 2000/वैतन
व भत्ते दिनांक 29 अक्टूबर 2001 से देय

आई सी संख्या, नाम व आर्म

51467 अरूण मलिक, मैक/इन्फैन्ट्री

51470 एन कौशिक, इन्जी०

51471 वी मैथ्यू, ए ओ सी

51472 जे एस यादव, इन्जी०

51473 आर कृष्ण, सिग्नलस

51475 ए तलवार, ए सी

51476 पी एस छोन्कर, इन्फैन्ट्री

51477 ए चट्टा, इन्जी०

51478 एस ए मसकेरी, इन्जी०

51480 जे चौहान, ए डी आर्टी

51481 एस एस बिष्ट, इन्फैन्ट्री

51483 टी बी रेड्डी, मैक/इन्फैन्ट्री

51484 एम आशिष, ए एस सी

51485 एस शर्मा, आर्टी

51486 यशवीर सिंह, ए एस सी

51487 उत्तम दीक्षित, इन्फैन्ट्री

51488 जे पी सिंह, आर्टी

51490 टी नरूला, ए डी आर्टी

51491 लविन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री

51493 आर वैनगुरु, सिग्नलस

51494 डी पठानिया, इन्फैन्ट्री

51496 अनिल चौधरी, इन्फैन्ट्री

51498 अमिताभ रॉय, आर्टी

51499 ए शर्मा, आर्टी

51501 टी वाई एस बेदी, इन्फैन्ट्री

51502 एस डी रचमेल, ई एम ई

51504 विरेन्द्र, ए एस सी

51506 एस. बेनर्जी, इन्फैन्ट्री

51507 राजबीर सिंह, आर्टी

51508 पी पी सिंह, इन्फैन्ट्री

51509 अजय कुमार, इन्फैन्ट्री

51511 ए एस रावैर, ए एस सी

51512 बी शयोपुरी, ई एम ई

51513 एस एस राजमनी, सिग्नलस

51514 पी कथियाल, इन्फैन्ट्री

51515 एस के शर्मा, इन्फैन्ट्री

51516 जी एस बाजवा, आर्टी

51517 जे एस वर्मा, सिग्नलस

51518 सी एस अग्रवाल, इन्फैन्ट्री

51519 एच एस छतवाल, ए डी आर्टी

51520 एच बी ग्रामोपाध्याय, इन्फैन्ट्री

51521 ए के श्रीवास्तवा, इन्फैन्ट्री

51522 ए कुन्दु, ए एस सी

51524 बी एस नेगी, इन्फैन्ट्री

51525 ए सिंह, ए एस सी

51526 ए एस वेलिम्बे, आर्टी

51527 एन आर्या, आर्टी

51528 एस सी चतुर्वेदी, ए ओ सी

51530 एस मोहन्ती, इन्फैन्ट्री

51531 आर सी सोवानी, सिग्नलस

51532 जे कुमार, इन्फैन्ट्री	51584 वी माधवल, ए एस सी
51533 आर एस थापा, इन्फैन्ट्री	51585 वी चोपड़ा, इन्जी०
51535 वी एस सांगवान, ए ओ सी	51586 आशिष आहुजा, इन्फैन्ट्री
51536 एस के भंभू, इन्फैन्ट्री	51588 एस मुकुणानाथन, आर्टी
51537 एन हरनाल, ए डी आर्टी	51590 आर कुमार, इन्फैन्ट्री
51538 एच भाटिया, सिग्नलस	51592 ए पतवाल, सिग्नलस
51539 जे सिंह, इन्फैन्ट्री	51593 बलवान सिंह, ए एस सी
51540 आर सिंह, ई एम ई	51594 पी पी एस सन्धू, ए ओ सी
51541 के एस ग्रेवाल, इन्फैन्ट्री	51598 एच पी एस शेरगिल, ए सी
51542 एस के गुप्ता, सिग्नलस	51600 यू एस उदावत, ए सी
51543 राजू बत्तरा, इन्जी०	51601 उत्तम हुल्कु, आर्टी
51544 ए सरकार, ई एम ई	51602 मनीष कुमार, इन्फैन्ट्री
51545 आर राठी, ए एस सी	51604 एस कुमार, ए एस सी
51547 ए मिश्रा, इन्जी०	51605 एम सक्सीना, इन्फैन्ट्री
51549 सन्दीप जसवाल, इन्फैन्ट्री	51606 वी के शीतेला, ए डी आर्टी
51550 बी एस कदियान, ए एस सी	51608 डी कुन्दलिया, ई एम ई
51552 पी एन प्रसनन, मैक/इन्फैन्ट्री	51609 ए एस पनवार, इन्जी०
51554 ए गोगना, आर्टी	51610 जे कपूर, इन्जी०
51555 एस के खारा, इन्फैन्ट्री	51611 अनूप सिंह, इन्फैन्ट्री
51556 आर एस ठाकुर, आर्टी	51612 एन पिल्ले, सिग्नलस
51557 ए के सिंह, इन्फैन्ट्री	51613 आर एच सलियान, इन्जी०
51558 के के अग्रवाल, ए एस सी	51615 पी सिंह, इन्फैन्ट्री
51560 ए जैसवाल, ई एम ई	51616 डी एस सुरेश, आर्टी
51561 ओ पी लोहे, ए सी	51617 सतीश कुमार, आर्टी
51562 राजवीर सिंह, ए ओ सी	51618 पी श्रीवास्तव, ए ओ सी
51564 के एस घड़वाल, इन्फैन्ट्री	51621 ए एस पी एस डोगरा, ई एम ई
51565 जे बी सिंह, इन्जी०	51622 बी वी एस एस राव, ए एस सी
51567 एफ थोमस, ए एस सी	51623 आई एस अबदी, आर्टी
51568 आर सिंह, इन्फैन्ट्री	51624 रोहित खरे, इन्फैन्ट्री
51569 एस के नायक, सिग्नलस	51625 एस कौशिक, ए एस सी
51570 ए मिश्रा, ए डी आर्टी	51626 ए मजूमदार, इन्फैन्ट्री
51571 एन एस रावत, इन्जी०	51628 टी कुमार, आर्टी
51573 जे जी गोपालन, ए सी	51630 सी एम बोपन्ना, मैक/इन्फैन्ट्री
51574 डी एस बसेरा, इन्फैन्ट्री	51632 दीपक कपूर, इन्फैन्ट्री
51575 जगदेव सिंह, ए एस सी	51633 जी चन्द्रा, ए डी आर्टी
51576 रोहित सोन्ध, इन्फैन्ट्री	51634 एस के नयाहम, इन्फैन्ट्री
51577 बी सी रॉय, ए ओ सी	51635 पी वधवा, सिग्नलस
51578 सनातन सिंह, आर्टी	51636 सिरिश सिंह, ए एस सी
51579 हरमीत सिंह, आर्टी	51638 आर मनोचा, आर्टी
51583 जगदीश चौहान, इन्जी०	51640 जी एस कटल, ए एस सी

51641 के राजागोपाल, सिग्नलस	51692 वी के भारद्वाज, ए ओ सी
51642 नवरतन सिंह, इन्फैन्ट्री	51693 एस वत्स, इन्फैन्ट्री
51643 आर डी सूजा, मैक/इन्फैन्ट्री	51694 एस कुमार, इन्जी०
51645 राहुल दत्त, इन्फैन्ट्री	51696 आर कुमार, ए डी आर्टी
51646 आई के जग्गी, इन्जी०	51697 एस पी दास, ए ओ सी
51647 आर मिश्रा, ए सी	51699 पी खन्डूरी, ए एस सी
51648 एस कुमार, इन्फैन्ट्री	51703 एन शर्मा, ए ओ सी
51649 टी सेन गुप्ता, इन्फैन्ट्री	51705 जे एस सिधू, आर्टी
51650 वी कटोच, ई एम ई	51706 एस विनोद, इन्फैन्ट्री
51651 जी शाह, ए डी आर्टी	51707 वी एन कुलकर्णी, इन्फैन्ट्री
51653 आर एन एस बाला जी, इन्जी०	51708 डी एस शेखावत, आर्टी
51654 आर बर्थवाल, ए सी	51709 एम एस कालरा, इन्फैन्ट्री
51655 नीरज सूद, इन्फैन्ट्री	51710 एन गुमासिया, इन्ट
51657 जी गुप्ता, सिग्नलस	51711 सुगातो सेन, इन्फैन्ट्री
51658 बी अजीत, इन्फैन्ट्री	51712 ए आर पिल्ले, इन्फैन्ट्री
51659 एस खतरी, ए एस सी	51713 एम सक्सेना, इन्फैन्ट्री
51662 आर आर यादव, ए ओ सी	51714 एस कुमार, इन्फैन्ट्री
51663 के मुरारी, इन्फैन्ट्री	51715 ए शर्मा, ई एम ई
51664 आई जे एस महल, इन्जी०	51716 वी खोबरागडे, ए सी
51665 ब्रिजेश सिंह, इन्फैन्ट्री	51717 डी एस पुनिया, ए एस सी
51666 आर नथावत, मैक/इन्फैन्ट्री	51718 ए जेटलिया, आर्टी
51668 पी एस जन्धू, इन्फैन्ट्री	51719 आर मिश्रा, इन्जी०
51670 एम राठौर, इन्फैन्ट्री	51720 एस के सिंह, ए ओ सी
51671 डी एस रावत, आर्टी	51724 पी एस चहल, ए डी आर्टी
51673 जी एस यादव, इन्फैन्ट्री	51726 वी त्रिपाठी, ए एस सी
51674 ए एस ठाकुर, ए ओ सी	51727 योगेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
51675 के बी बेनूगोपाल, इन्फैन्ट्री	51728 अतुल बिन्दा, ए डी आर्टी
51676 अनुज कुमार, ए सी	51729 ए के चन्दा, इन्जी०
51677 एस एस कोयार, ए एस सी	51731 एस श्रीवास्तवा, सिग्नलस
51679 सौरभ शर्मा, आर्टी	51732 सुमीत बक्सी, इन्फैन्ट्री
51680 राजीव मल्होत्रा, इन्जी०	51733 एस किशोर, इन्फैन्ट्री
51681 आर के सिंह, ए एस सी	51736 वी जेटली, आर्टी
51683 टी एस मान, ए एस सी	51737 डी मेटिया, इन्जी०
51684 जे रॉय, सिग्नलस	51739 आर जे राव, ई एम ई
51685 जे एस सोही, ए डी आर्टी	51740 ए चानन, आर्टी
51686 ए जैन, ई एम ई	51741 ए आँडी, सिग्नलस
51687 ए गंभीर, इन्जी०	51742 आर गुप्ता, ए एस सी
51688 के बी थापा, इन्फैन्ट्री	51743 ए थोरट, मैक/इन्फैन्ट्री
51689 टी बी स्वामी, इन्फैन्ट्री	51745 ए एस यादव, आर्टी
51690 संजीव पन्त, इन्फैन्ट्री	51746 आई एस अर मनी, सिग्नलस

51747 अमित कुमार, ए ओ सी	51825 बकुल गोसांइ, इन्फैन्ट्री
51748 एस पाठक, ई एम ई	51826 ए राय, ए ओ सी
51749 ए भारती, इन्जी०	51827 आर कुमार, ए एस सी
51750 जी सिंह, ए सी	51828 पी के शिवा गंगा, ए डी आर्टी
51751 संजीव सिंह, इन्फैन्ट्री	51831 आर एम नजम, इन्जी०
51754 आर पवीथरन, इन्फैन्ट्री	51833 अजीत सिंह, ए एस सी
51755 आर अग्रवाल, इन्फैन्ट्री	51834 पी भौमिक, आर्टी
51756 एस नैनर्जी, सिग्नलस	51835 एस एस कौशिकर, इन्फैन्ट्री
51759 पी एस कुलकर्णी, इन्ट	51836 कार्तिक दत्त, इन्फैन्ट्री
51760 एम के रावत, इन्जी०	51837 एस एम राज, आर्टी
51762 जी के मेहता, इन्फैन्ट्री	51839 राजीव राय, आर्टी
51763 परवीन कुमार, इन्फैन्ट्री	51840 एस बलोटी, इन्जी०
51766 जे जे अब्राहम, आर्टी	51842 जे एस धालिवाल, ए सी
51767 बी एस मधोक, ए डी आर्टी	51843 बी पी द्विवेदी, ए एस सी
51771 के जे सिंह, ए एस सी	51844 अर्पित थापा, इन्फैन्ट्री
51772 आर पी कश्यप, ए एस सी	51846 पी ए कटे, इन्फैन्ट्री
51774 एच के झा, इन्जी०	51847 सी एम पीटर, इन्फैन्ट्री
51779 आर के तिवारी, सिग्नलस	51848 एन वासुदेवन, इन्फैन्ट्री
51780 ए कुमार, ई एम ई	51849 एम सिंह, ई एम ई
51784 के के सिन्हा, इन्फैन्ट्री	51852 के बैनर्जी, ए ओ सी
51786 ए त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री	51853 के टी जी कृष्ण, इन्फैन्ट्री
51787 डी जोशी, ए सी	51854 विवेक भट्ट, इन्फैन्ट्री
51791 एल रहमान, आर्टी	51857 एस के एस पाण्डे, ए एस सी
51793 इन्द्र सिंह, इन्जी०	51859 एस सिवारमन, इन्ट
51794 एम एम माथ, इन्जी०	51863 आर बक्शी, ए एस सी
51795 जे वरवीस, ए एस सी	51865 एस लाम्बा, इन्जी०
51796 आर सिंह, इन्फैन्ट्री	51866 पी एस तनवर, इन्फैन्ट्री
51797 एच एस सन्धू, इन्फैन्ट्री	51867 संजय शर्मा, इन्फैन्ट्री
51798 पी नेथानी, ए ओ सी	51868 संजय बत्रा, आर्टी
51799 वी वी माधव, ई एम ई	51870 के एम राय, मैक/इन्फैन्ट्री
51800 के जे सिंह, ए ओ सी	51873 एम मनवर, ए एस सी
51802 किरण कुमार, ए ओ सी	51876 विकास सिंह, इन्फैन्ट्री
51803 जे एस चीमा, आर्टी	51877 बी मैथ्यू, इन्फैन्ट्री
51805 एस पेंघाल, ए ओ सी	51880 देवेश सिन्हा, इन्फैन्ट्री
51808 विनय शाही, ए ओ सी	51882 डी सन्धी, ए डी आर्टी
51812 ए सूरी, ए सी	51893 के नेथानी, ए ई सी
51813 अमित पूर्ति, इन्फैन्ट्री	51894 एम सी जोशी, सिग्नलस
51814 एम जोशी, ई एम ई	51906 एम एम कन्दवाल, ए ई सी
51816 प्रतीक कुमार, मैक/इन्फैन्ट्री	
51819 सी डी कौशल, इन्जी०	19 दिसम्बर 2002
51820 एस एस सार्थी, सिग्नलस	53457 ए द्विवेदी, इन्जी०
51823 ए नेगी, ई एम ई	53458 आर प्रसाद, इन्जी०
	53459 एस के प्रसाद, ई एम ई

- 53462 ए के राय, इन्जी०
 53464 ए के उनियाल, सिग्नल्स
 53466 बी जी अनिल, इन्जी०
 53467 जी वधवा, इन्जी०
 53471 एस शर्मा, ई एम ई
 53472 एच नेगी, ई एम ई
 53474 एस आर बिसवास, इन्जी०
 53475 एस कुमार, इन्जी०
 53476 ए शर्मा, इन्जी०
 53478 एम वासुदेवा, ई एम ई
 53481 एम वी अल्लूर, ई एम ई
 53485 ए के चतुर्वेदी, ई एम ई
 53487 एस एस जूनेजा, इन्जी०
 53489 पी खन्ना, ई एम ई
 53491 पी एस रमेश, ई एम ई
 53492 पी कुमार, इन्जी०
 53493 परवीन बी, सिग्नल्स

20 दिसम्बर 2002

के एस वर्मा
 संयुक्त निदेशक, एम एस 8सी

रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग

सं. 255, दिनांक 21 मार्च, 03—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां/नियुक्तियां करते हैं :-

1. भारतीय प्रसारण निगम आकाशवाणी, बोलनगीर, उड़ीसा के श्री एस. विद्यासागर, सहायक-सह-मुख्य लिपिक की 05 दिसम्बर 02 (पूर्वाह) से 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर व. गु. आ. स्था. (सैन्य विस्फोट), अरुवनकाडु में प्रशासन अधिकारी के रूप में।

2. कार्यालय सहायक निदेशक, समनुषंगी (गृह मंत्रालय), गुप्त वार्ता, ऐजवल (मिजोरम) के श्री एम.के. साहू, सहायक की 30 दिसम्बर 02 (पूर्वाह) से 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर रक्षा गु. आ. संस्थान, बंगलोर में प्रशासन अधिकारी के रूप में।

3. व. गु. आ. स्था. (आयुध), खडकी के श्री मैथ्यू फिलिप, वरिष्ठ भंडार अधीक्षक की 09 दिसम्बर 02 (पूर्वाह) से 2 वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर गु. आ. नि. (सैन्य विस्फोट), खडकी में स्थानापन्न भंडार अधिकारी के रूप में।

4. गु. आ. नि. (शस्त्र), खडकी के श्री जे. पी. दोईफोदे, कार्यालय अधीक्षक की 10 फरवरी 03 (पूर्वाह) से 2 वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर गु. आ. नि. (सैन्य विस्फोट), खडकी में स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी के रूप में।

एस. एन. त्रिपाठी
 उप सचिव

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 256, दिनांक 25 मार्च 03—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित वैज्ञानिक "बी" को उनके नाम के सामने दर्शाये गए दिनांक से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में वैज्ञानिक "सी" के रूप में वेतनमान रु. 10000-325-15200 पर:-

सं.	नाम	स्थापना	दिनांक
1.	श्री ए. पशुपति	सी.बी.आर.डी., चेन्नई	01.7.2002
2.	श्री ए.आर. वाला सुब्रामनियम	-वही-	-वही-
3.	श्री आर. मुथु कुमार	-वही-	-वही-
4.	श्री दिनेश कुमार तिवारी	सी.ए.वी.एस., बैंगलूर	-वही-
5.	श्री मारला रंगानयाकुलु	-वही-	-वही-
6.	श्री ए शंकर	-वही-	-वही-

श्रीमति उषा राणि पुरी, तकनीकी अधिकारी 'बी' को इस्सा, दिल्ली में दिनांक 1.9.2002 से रक्षा अनुसंधान तथा तकनीकी केंद्र में तकनीकी अधिकारी 'सी' के रूप में वेतनमान रु. 10000-325-15200 पर।

श्री भूपिन्दर भारद्वाज, तकनीकी अधिकारी 'ए' को इस्सा, दिल्ली में दिनांक 1.9.2002 से रक्षा अनुसंधान तथा तकनीकी केंद्र में दो वर्ष की परखावधि पर तकनीकी अधिकारी 'बी' (ग्रुप 'ए' राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रु. 8000-275-13500 पर।

निम्नलिखित वरिष्ठ तकनीकी सहायक को इस्सा, दिल्ली में दिनांक 1.09.2002 से रक्षा अनुसंधान तथा तकनीकी केंद्र में तकनीकी अधिकारी 'ए' (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रु. 7450-225-11500 पर:-

सं. नाम (श्री)

1. ए. जयराज
2. राजीव गुप्ता

जे. के. खडवाल
 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 257, तारीख 20 मार्च 03—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:-

नियमित सेना

इन्फैंट्री

डोगरा रेजिमेण्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार ओंकार सिंह कंवर (जे.सी.-518351ए) 01 अक्टूबर 2002

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार करन सिंह (जे.सी.-518988 के) 04 दिसम्बर 2002*

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002।

नायब सूबेदार हेम राज (जे.सी.-518976 पी), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार हंस राज (जे.सी.-519044 पी), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार रोमेश चन्दर (जे.सी.-519048 एल), 20 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार जगीर सिंह (जे.सी.-519065 एल), 22 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार सुदर्शन कुमार (जे.सी.-518977 एक्स), 01 नवम्बर 2002.

नायब सूबेदार दमोदर दास कटवाल (जे.सी.-518999 डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2002.

नायब सूबेदार भोला नाथ शर्मा, सेना मैडल (जे.सी.-519049 एन), 01 नवम्बर 2002

सूबेदार संगीतज्ञ के रैंक में

नायब सूबेदार संगीतज्ञ विजय सिंह (जे.सी.-519184 एफ), 31 मई 2002*

*सूबेदार संगीतज्ञ के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2002।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार राजिंदर सिंह (जे.सी.-518199 पी), 07 दिसम्बर, 2002*

*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002

सूबेदार यशपाल सिंह (जे.सी.-518333 एक्स), 01 जनवरी 2003

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार चैन सिंह (जे.सी.-519179 डब्ल्यू), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार निक्का राम (जे.सी.-519191 एक्स), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार बिशन दास (जे.सी.-518991 के) 20 जनवरी 2003*

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002।

नायब सूबेदार राम कृष्ण (जे.सी.-478640 के), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार सुरिन्द्र सिंह (जे.सी.-498633 पी), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार हरी सिंह (जे.सी.-519164 एन), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार संसार चन्द (जे.सी.-519177 एल), 01 अक्टूबर 2002

सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में

सूबेदार रत्न लाल (जे.सी.-518269 एल), 05 जून 2002*

*सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002

प्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार गजे सिंह (सं. 2670778 ए अब जे.सी.-449363 एफ), 01 दिसम्बर 2002

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 फरवरी 2001)

हवलदार शत्रुघ्न सिंह (सं. 2672656 पी अब जे.सी.-449364 के), 01 जुलाई 2002

हवलदार फैजु खान (सं. 2671327 एम अब जे.सी.-449365 एम), 15 सितम्बर 2002

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002)

हवलदार मनवीर अली (सं. 2676134 डब्ल्यू अब जे.सी.-449366 पी), 25 जुलाई 2002

हवलदार घनश्याम सिंह (सं. 2674601 के अब जे.सी.-449367 एक्स), 02 अक्टूबर 2002

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 अगस्त 2002)

हवलदार शरीफ खान (सं. 2675853 एच अब जे.सी.-449368 ए), 18 सितम्बर 2002

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 सितम्बर 2002)

हवलदार समशेर सिंह (सं. 2671342 एफ अब जे.सी.-449369 एच), 14 अक्टूबर 2002

हवलदार रोहताश कुमार (सं. 2679378 पी अब जे.सी.-449370 एक्स), 01 नवम्बर 2002

हवलदार अजीत सिंह (सं. 2673219 एफ अब जे.सी.-449395 के), 10 जून 2002

हवलदार इसपाक अहमद (सं. 2670641 एन अब जे.सी.-449396 एम), 01 जनवरी 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002)

हवलदार अजीत सिंह (सं. 2674109 वाई अब जे.सी.-449397 पी), 01 सितम्बर 2002

हवलदार वेरेन्द्र सिंह वर्मा (सं. 2677413 एन अब जे.सी.-449398 एक्स), 08 दिसम्बर 2002

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002)

हवलदार अहमद खां (सं. 2670862 ए अब जे.सी.-449399 ए), 01 नवम्बर 2002

हवलदार भागीरथ सिंह मुंद (सं. 2677262 ए अब जे.सी.-449400 के), 21 जनवरी 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 नवम्बर 2002)

हवलदार फरियाद (सं. 2673103 एल अब जे.सी.-449401 एम), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार राम निवास (सं. 2671281 पी अब जे.सी.-449402 पी), 05 दिसम्बर 2002

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002)

हवलदार फूल मोहम्मद (सं. 2676060 एम अब जे.सी.-449403 एक्स), 08 दिसम्बर 2002

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002)

हवलदार भंवर अली (सं. 2676197 वाई अब जे.सी.-449404 ए), 22 दिसम्बर 2002

हवलदार रामजी सिंह (सं. 2670980 एन अब जे.सी.-449405 एच), 22 फरवरी 2002

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003)

हवलदार उम्मेद सिंह जाखड़ (सं. 2683365 पी अब जे.सी.-449406 एल), 01 फरवरी 2003

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 2680332 वाई अब जे.सी.-449407 एन), 01 फरवरी 2003

हवलदार शिशुपाल सिंह (सं. 2670944 एच अब जे.सी.-449408 डब्ल्यू), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक हमीद खां (सं. 2671716 एम अब जे.सी.-449409 वाई), 01 जनवरी 2003

मद्रास रेजीमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार उधेया एन बी (जे. सी. 438759 एल), 27 अगस्त 2002

नायब सूबेदार टी एम भारत (जे. सी. 438765 वाई), 27 अगस्त 2002

नायब सूबेदार आर माणिकवैल (जे. सी. 438773 एक्स), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार सोमनाथन पी के (जे. सी. 438796 वाई), 17 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार बाबू एम (जे. सी. 438813 एन), 17 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार श्रीशेलप्पा हसाबी (जे. सी. 438882 के), 17 सितम्बर 2002

2—34 GI/2003

नायब सूबेदार लालू टी पी (जे. सी. 438925 एन), 17 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार रघुनाथन टी वी (जे. सी. 438771 एम), 01 अक्टूबर 2002

महार रेजिमेन्ट

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक कमल जीत सिंह (जे.सी.-568617 एक्स), 27 दिसम्बर 2002*

*(बिना वेतन के ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002)

नायब सूबेदार लिपिक समसुद्दिन गौरी (जे.सी.-568618 ए), 08 जनवरी 2003**

** (बिना वेतन के ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003)

मद्रास रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कुमारस्वामी (जे.सी.-438837 एक्स), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार सुरेश कुमार पी आर (जे.सी.-438772 पी), 01 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार शेक कादर वली (जे.सी.-438851 के), 01 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार राजेन्द्रन नायर एम एम (जे.सी.-438852 एम), 01 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार एम वरदाराज (जे.सी.-439011 डब्ल्यू), 06 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार ए सुन्दरराज (जे.सी.-438705 के), 19 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार एन पनीर सेल्वम (जे.सी.-438307 एच), 01 जनवरी 2003

नायब सूबेदार शेक जमाल वली (जे.सी.-438580 एक्स), 01 जनवरी 2003

नायब सूबेदार डी कृष्णन (जे.सी.-438886 ए), 01 जनवरी 2003

गढ़वाल राईफल्स

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सतीश चन्द्र कण्डवाल (जे.सी.-528682 पी), 01 जून 2002

नायब सूबेदार राजे सिंह (जे.सी.-528777 पी), 01 जून 2002

नायब सूबेदार रघुबीर सिंह (जे.सी.-528887 के), 01 जून 2002

नायब सूबेदार सम्मूरन सिंह (जे.सी.-528554 एक्स), 01 जुलाई 2002

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जे.सी.-528708 वाई), 01 जुलाई 2002

नायब सूबेदार विक्रम सिंह (जे.सी.-528714 एम), 01 जुलाई 2002

नायब सूबेदार रमेश चन्द (जे.सी.-528747 एक्स), 01 जुलाई 2002

नायब सूबेदार सुदर्शन सिंह (जे.सी.-528943 एक्स), 01 जुलाई 2002

नायब सूबेदार मोहन सिंह नेगी (जे.सी.-529017 वाई), 01 जुलाई 2002

नायब सूबेदार विनोद सिंह (जे.सी.-528725 वाई), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार सते सिंह (जे.सी.-528758 के), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार कुन्दन सिंह (जे.सी.-528944 ए), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार केदार सिंह (जे.सी.-528793 एम), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार महाबीर सिंह (जे.सी.-528916 एन), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार बलोन्द्र सिंह (जे.सी.-528799 एन), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार भरत सिंह (जे.सी.-528814 एक्स), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जे.सी.-528815 ए), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार सत्यपाल सिंह (जे.सी.-528833 एच), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जे.सी.-528836 डब्ल्यू), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जे.सी.-528919 ए), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जे.सी.-528870 डब्ल्यू), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जे.सी.-529034 वाई), 27 अगस्त 2002

नायब सूबेदार फौरया लाल (जे.सी.-528726 एफ), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार धन सिंह (जे.सी.-528673 एन), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार बुधो लाल (जे.सी.-528721 एफ), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जे.सी.-528722 के), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार पिताम्बर दत्त (जे.सी.-528727 के), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार अजय सिंह (जे.सी.-528729 पी), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार रमेश चन्द (जे.सी.-528807 एफ), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार भजन सिंह (जे.सी.-528769 डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार कीर्ती राम (जे.सी.-528809 एम), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार जगत सिंह (जे.सी.-528798 एल), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार दिवान सिंह (जे.सी.-528820 एल), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार हयात सिंह (जे.सी.-528805 डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार गीता सिंह (जे.सी.-528837 वाई), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार दरमियान सिंह (जे.सी.-528852 एन), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार खुशाल सिंह (जे.सी.-528853 डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार कान्ता प्रसाद (जे.सी.-528955 एम), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार बीर सिंह (जे.सी.-528940 के), 01 सितम्बर 2002

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) पूरन सिंह (जे.सी.-528506 एक्स), 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार (लिपिक) उमा नन्द बलोदी (जे.सी.-528526 एल), 01 नवम्बर 2002

सूबेदार (धर्मशिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक) सुरेश चन्द्र जोशी (जे.सी.-144223 एम), 07 दिसम्बर 1999

नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक) गणेश चन्द्र खण्डुड़ी (जे.सी.-161902 ए), 07 दिसम्बर 1999

नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक) मथुरा प्रसाद (जे.सी.-528016 के), 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक) श्रीधर द्विवेदी (जे.सी.-528017 एम), 01 नवम्बर 2002

पेराशूट रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार रामबीर सिंह (जे.सी.-210916 एम), 01 नवम्बर 2002

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) ससीधरन वी (जे.सी.-412042 एम), 01 दिसम्बर 2002

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार चरन सिंह (जे.सी.-412465 ए), 01 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार दिलजीत सिंह (जे.सी.-412537 वाई), 01 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार दिलीप सिंह (जे.सी.-412482 ए), 06 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार भीम सिंह रायजादा (जे.सी.-412483 एच), 06 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार सुबोध कुमार सिंह (जे.सी.-412421 एच), 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार खबा राम, एस एम (जे.सी.-412315 के), 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार हिम्मत नाथ (जे.सी.-412339 एन), 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार सतनाम सिंह (जे.सी.-412487 वाई), 01 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार सत्यबीर सिंह (जे.सी.-412422 एल), 01 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार जैसी राम (जे.सी.-412326 पी), 01 दिसम्बर 2002

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) तिलक राज कुमार अवस्थी (जे.सी.-412350 एम), 01 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार लून करन, एस एम (नं. 13614408 एफ अब जे.सी.-412729 डब्ल्यू), 19 अक्टूबर 2002*

*नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अगस्त 2002

हवलदार भीका राम चौधरी (नं. 13614410 वाई अब जे.सी.-412730 एल), 19 अक्टूबर 2002*

*नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अगस्त 2002

हवलदार रत्नपाल सिंह (नं. 13612926 एच अब जे.सी.-412732 डब्ल्यू), 30 सितम्बर 2002*

*नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 सितम्बर 2002

हवलदार जयपाल सिंह (नं. 13613373 के अब जे.सी.-412733 वाई), 08 नवम्बर 2002*

*नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 सितम्बर 2002

हवलदार दरबान सिंह नेगी (नं. 13614295 के अब जे.सी.-412734 एफ), 21 नवम्बर 2002*

*नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 सितम्बर 2002

हवलदार रमेश दत्त (नं. 13614487 एफ अब जे.सी.-412735 के), 21 नवम्बर 2002*

*नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 सितम्बर 2002

हवलदार ईधर पाल विद्यार्थी (नं. 13614848 पी अब जे.सी.-412736 एम), 19 अक्टूबर 2002*

*नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 मई 2002

हवलदार जय बहादुर (नं. 13617742 एन अब जे.सी.-412737 पी), 30 सितम्बर 2002*

*नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 सितम्बर 2002

हवलदार राम सिंह (नं. 13612521 एक्स अब जे.सी.-412740 पी), 07 दिसम्बर 2002*

*नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002

हवलदार श्री किशन (नं. 13613315 ए अब जे.सी.-412741 एक्स), 07 दिसम्बर 2002*

*नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002

हवलदार मंथीर सिंह (नं. 13613789 एफ अब जे.सी.-412742 ए), 01 अक्टूबर 2002

हवलदार जय राम सिंह (नं. 13614756 एच अब जे.सी.-412743 एच), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) बसंत कुमार मिश्रा (नं. 13616929 एन अब जे.सी.-412731 एन), 21 अक्टूबर 2002*

*नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002

हवलदार (लिपिक) सी वी दिनेशन (नं. 13613084 पी अब जे.सी.-412738 एक्स), 01 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार (म्यूजीशियन) के रैंक में

हवलदार (म्यूजीशियन) राम सिंह कदोलिया (नं. 13613879 एच अब जे.सी.-412739 ए), 10 अक्टूबर 2002

इन्फैन्ट्री-11 जी आर

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार क्रिस्टोफर सुब्बा (जे.सी.-634231 ए), 20 दिसम्बर 2002@

@वेतन भत्ता पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार मोहन राई (जे.सी.-634235 डब्ल्यू), 21 दिसम्बर 2002#

#वेतन भत्ता पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार टोक बहादुर राई (जे.सी.-634279 एल), 07 जनवरी 2003*

*वेतन भत्ता पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दिनांक 09 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार प्रदिप कुमार लिम्बु (जे.सी.-634285 एफ), 07 जनवरी 2003**

**वेतन भत्ता पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2003

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार दीपक जंग थापा (जे.सी.-205741 एल), 01 अक्टूबर 2002

सूबेदार कमल कुमार राई (जे.सी.-634012 वाई), 01 सितम्बर 2002

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भरत कुमार राई (जे.सी.-634186 वाई), 30 जून 2002@

@वेतन भत्ता पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2002

नायब सूबेदार इ द्रा बहादुर तमांग (जे.सी.-634188 के), 26 जुलाई 2002@

@वेतन भत्ता पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2002

नायब सूबेदार धन बहादुर राई (जे.सी.-634143 एच), 18 अक्टूबर 2002@

@वेतन भत्ता पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2002

नायब सूबेदार अमीर राई (जे.सी.-634234 एन), 23 अक्टूबर 2002@

@वेतन भत्ता पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2002

नायब सूबेदार बल प्रसाद राई (जे.सी.-6344236 वाई), 23 अक्टूबर 2002@

@वेतन भत्ता पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2002

नायब सूबेदार हान बीर राई (जे.सी.-634275 एक्स), 15 नवम्बर 2002@

@वेतन भत्ता पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार जीत बहादुर राई (जे.सी.-6344236 वाई), 26 नवम्बर 2002@

@वेतन भत्ता पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार प्रह्लाद मनी राई (जे.सी.-6344236 वाई), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार जगन्नाथ गुरगैन (जे.सी.-6344236 वाई), 18 नवम्बर 2002@

@वेतन भत्ता पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार गोपाल तमांग (जे.सी.-6344236 वाई), 01 दिसम्बर 2002

कुमाऊं रेजीमेन्ट

सूबेदार मेजर के पद में

सूबेदार हरीश चन्द्र (जे.सी.-178062 एफ), 01 जुलाई 2000

सूबेदार नारायण सिंह शाही (जे.सी.-184417 एक्स), 01 मार्च 2001

सूबेदार सत्यनारायण सिंह (जे.सी.-219747 एक्स), 03 फरवरी 2002/01 फरवरी 2002*

*सूबेदार मेजर के पद में ज्येष्ठता, दिनांक 01 फरवरी 2002 से दी गई।

सूबेदार होशियार सिंह (जे.सी.-212679 एम), 01 फरवरी 2002

सूबेदार चनरी चन्द (जे.सी.-196555 एल), 04 मार्च 2002/01 मार्च 2002*

*सूबेदार मेजर के पद में ज्येष्ठता, दिनांक 01 मार्च 2002 से दी गई।

सूबेदार हरीश सिंह (जे.सी.-205226 वाई), 31 जुलाई 2002/15 जुलाई 2002*

*सूबेदार मेजर के पद में ज्येष्ठता, दिनांक 15 जुलाई 2002 से दी गई।

सूबेदार धर्मपाल यादव (जे.सी.-216614 डब्ल्यू), 21 जुलाई 2002/15 जुलाई 2002*

*सूबेदार मेजर के पद में ज्येष्ठता, दिनांक 15 जुलाई 2002 से दी गई।

नागा रेजीमेन्ट

सूबेदार के एच घोर्शू चौथे (जे.सी.-148473 एल), 01 जून 2000

कुमाऊं रेजीमेन्ट

सूबेदार के पद में

ना० सू० इन्द्र सिंह (जे सी-538523 एल), 07 सितम्बर 2001/14 अगस्त 2001*

*सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 14 अगस्त 2001 से दी गई।

ना० सू० दान सिंह (जे सी-538524 एन), 30 जनवरी 2002/01 सितम्बर 2001*

*सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2001 से दी गई।

ना० सू० नरेन्द्र सिंह (जे सी-538525 डब्ल्यू), 28 जून 2002/01 जून 2002*

*सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2002 से दी गई।

ना० सू० शेर सिंह (जे सी-538688 के), 28 जून 2002/01 जून 2002*

*सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2002 से दी गई।

ना० सू० मनोहर सिंह (जे सी-538689 एम), 03 जुलाई 2002/01 जून 2002*

*सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2002 से दी गई।

ना० सू० देव सिंह, एस एम (जे सी-538786 के), 03 जुलाई 2002/01 जून 2002*

*सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2002 से दी गई।

ना० सू० हरीश चन्द (जे सी-538876 एल), 20 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*

*सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2002 से दी गई।

ना० सू० गोविन्द सिंह (जे सी-538888 ए), 20 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*

*सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2002 से दी गई।

ना० सू० यशवन्त सिंह (जे सी-538939 एच), 20 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*

*सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2002 से दी गई।

ना० सू० दरपान सिंह (जे सी-538940 के), 29 अक्टूबर 2002/01 सितम्बर 2002*

*सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2002 से दी गई।

ना० सू० मंगल सिंह काराकोटी (जे सी-538587 डब्लू), 19 अक्टूबर 2002/01 अक्टूबर 2001*

*सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2001 से दी गई।

ना० सू० चंचल सिंह (जे सी-538589 एफ), 05 जून 2000

ना० सू० नरेश चन्द्र कुमार (जे सी-538590 पी), 09 अक्टूबर 2000/13 जुलाई 2000*

*सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 13 जुलाई 2000 से दी गई।

ना० सू० पूरन सिंह (जे सी-538591 एक्स), 17 जनवरी 2002/01 जनवरी 2002*

*सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2002 से दी गई।

ना० सू० त्रिलोक सिंह (जे सी-538639 एफ), 01 मई 2002

ना० सू० करन सिंह धामी (जे सी-538698 एन), 29 जून 2002/01 जून 2002*

*सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2002 से दी गई।

ना० सू० आनन्द सिंह महर (जे सी-538699 डब्लू), 17 जुलाई 2002/01 जुलाई 2002*

*सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2002 से दी गई।

ना० सू० दलीप सिंह (जे सी-538700 ए), 22 अगस्त 2002/01 जुलाई 2002*

*सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2002 से दी गई।

ना० सू० बिशन सिंह (जे सी-538749 एम), 06 अक्टूबर 2002/01 सितम्बर 2002*

*सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2002 से दी गई।

ना० सू० मोहन सिंह बिष्ट (जे सी-538750 एल), 01 सितम्बर 2002

ना० सू० दीवान सिंह बोरा (जे सी-538736 वाई), 21 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*

*सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2002 से दी गई।

ना० सू० शेर सिंह मेहता (जे सी-538737 एफ), 23 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*

*सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2002 से दी गई।

ना० सू० दान सिंह (जे सी-538165 एल), 25 सितम्बर 2002/01 अगस्त 2002*

*सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2002 से दी गई।

ना० सू० लिपिक मनोहर सिंह रौतेला (जे सी-538617 एच), 17 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*

*सूबेदार लिपिक के पद में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2002 से दी गई।

महार रेजिमेन्ट

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक सिनय कुमार मिश्रा (जेसी-568582 एम), 25 नवम्बर 2002*

*बिना वेतन के ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002

सिख रेजीमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मखन सिंह (जे सी 192612 के), 01 दिसम्बर 02

सूबेदार मेजर धर्म शिक्षक के रैंक में

सूबेदार धर्म शिक्षक निरवैल सिंह (जे सी 75137 एन), 01 मार्च 2000

सूबेदार धर्म शिक्षक हरचरन सिंह (जे सी 77036 एक्स), 01 जनवरी 01

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जे सी 498555 एच), 01 अप्रैल 01

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जे सी 498181 एक्स), 18 अप्रैल 01

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जे सी 498248 एल), 01 जुलाई 01

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जे सी 498580 एफ), 01 जुलाई 01

नायब सूबेदार करनैल सिंह (जे सी 498613 एफ), 01 सितम्बर 01

नायब सूबेदार जसविन्दर सिंह (जे सी 498233 एच), 01 दिसम्बर 01
 नायब सूबेदार अंग्रेज सिंह (जे सी 498617 एक्स), 01 जनवरी 02
 नायब सूबेदार दिदार सिंह (जे सी 498667 एच), 01 जनवरी 02
 नायब सूबेदार रंधीर सिंह (जे सी 498668 एल), 17 अप्रैल 02
 नायब सूबेदार बालकर्ण सिंह (जे सी 498718 एल), 18 अप्रैल 02
 नायब सूबेदार जसवन्त सिंह (जे सी 498769 वाई), 01 मई 02
 नायब सूबेदार नाहर सिंह (जे सी 498782 एच), 20 मई 02*

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 02

नायब सूबेदार मलकोत सिंह (जे सी 498821 डब्ल्यू), 01 जून 02
 नायब सूबेदार सलेन्दर सिंह (जे सी 498822 वाई), 12 जून 02
 नायब सूबेदार जंग सिंह (जे सी 498844 एक्स), 01 अगस्त 02
 नायब सूबेदार गुरजंत सिंह (जे सी 498847 एल), 10 अगस्त 02
 नायब सूबेदार शबजिन्दर सिंह (जे सी 498785 डब्ल्यू), 01 जनवरी 03*

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 02

नायब सूबेदार निरवैल सिंह (जे सी 498706 डब्ल्यू), 10 नवम्बर 02*

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 02

नायब सूबेदार दिलधर सिंह (जे सी 498707 वाई), 01 दिसम्बर 02
 नायब सूबेदार जसविन्दर सिंह (जे सी 498886 के), 01 दिसम्बर 02

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सतनाम सिंह (जे सी 184378 के), 01 अक्टूबर 02

सूबेदार मेजर क्लर्क के रैंक में

सूबेदार क्लर्क कश्मीर सिंह (जे सी 220986 वाई), 02 दिसम्बर 02*

*सूबेदार मेजर क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 02

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जे सी 498646 एम), 01 सितम्बर 02

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सूचा सिंह (जे सी 192420 एम), 16 दिसम्बर 02*

*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 02

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार परमजीत सिंह (जे सी 498787 एफ), 01 जून 02

नायब सूबेदार राम सिंह (जे सी 498809 पी), 01 जून 02

नायब सूबेदार बोहर सिंह (जे सी 498849 डब्ल्यू), 06 अगस्त 02*

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 02

नायब सूबेदार हरजिन्दर सिंह (जे सी 498876 ए), 01 जून 02

नायब सूबेदार थाना सिंह (जे सी 498890 एम), 01 जून 02

नायब सूबेदार रंजीत सिंह (जे सी 498891 पी), 03 जून 02*

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 02

नायब सूबेदार मुख्तार सिंह (जे सी 498922 के), 01 अक्टूबर 02

नायब सूबेदार धनवीर सिंह (जे सी 498928 एल), 12 अक्टूबर 02

नायब सूबेदार हरबंस सिंह (जे सी 498708 एफ), 18 दिसम्बर 02*

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 02

नायब सूबेदार गुरदीप सिंह (जे सी 498794 ए), 06 नवम्बर 02*

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 02

नायब सूबेदार मुखदेव सिंह (जे सी 498929 एन), 01 फरवरी 03

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क सिकन्दर लाल (जे सी 498591 एन), 01 अगस्त 02

नायब सूबेदार क्लर्क कुलवंत सिंह (जे सी 498599 ए), 01 सितम्बर 02

जाट रेजिमेंट

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

हरिनिवास द्विवेदी (जेसी-489253 पी), 30 नवम्बर 2002

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जयपाल सिंह (जेसी-488583 एफ), 1 सितम्बर 2001

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-488620 के), 1 सितम्बर 2001

नायब सूबेदार सूरजा राम (जेसी-488628 डब्ल्यू), 9 अक्टूबर 2001*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2001 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जगबीर सिंह फोगाट (जेसी-488629 वाई), 1 सितम्बर 2001

नायब सूबेदार तेजबीर सिंह (जेसी-488630 एन), 1 सितम्बर 2001

नायब सूबेदार बनवारी लाल (जेसी-488633 एफ), 1 सितम्बर 2001

नायब सूबेदार बिरमा राम (जेसी-488636 पी), 1 सितम्बर 2001

नायब सूबेदार रामदेव जाट (जेसी-488675 एन), 1 अप्रैल 2002*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2001 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार दीप चन्द (जेसी-488676 डब्ल्यू), 1 सितम्बर 2001

नायब सूबेदार मांगे राम (जेसी-488664 एफ), 1 सितम्बर 2001

नायब सूबेदार बनी सिंह (जेसी-488669 ए), 30 जुलाई 2002*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2001 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार ब्रह्म नन्द (जेसी-488670 पी), 21 सितम्बर 2001*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2001 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रण सिंह (जेसी-488671 एक्स), 11 अप्रैल 2002*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2001 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जिले सिंह (जेसी-488631 डब्ल्यू), 2 सितम्बर 2001

नायब सूबेदार हरीपाल सिंह (जेसी-488713 वाई), 6 सितम्बर 2001

नायब सूबेदार राजबीर सिंह (जेसी-488485 एफ), 20 सितम्बर 2001

नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-488632 वाई), 21 सितम्बर 2001

नायब सूबेदार धर्मबीर सिंह (जेसी-488692 एन), 3 दिसम्बर 2001*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 सितम्बर 2001 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बलवान सिंह (जेसी-488488 पी), 5 अक्टूबर 2001

नायब सूबेदार मुरारी लाल (जेसी-488490 एम), 1 नवम्बर 2001

नायब सूबेदार रामेश्वर सिंह (जेसी-488681 एफ), 27 मई 2002*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2001 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-488644 एन), 1 नवम्बर 2001

नायब सूबेदार रवीन्द्र सिंह (जेसी-488690 एच), 1 नवम्बर 2001

नायब सूबेदार गुलजारी लाल (जेसी-488729 के), 9 नवम्बर 2001*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2001 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रामवीर (जेसी-488731 एफ), 1 नवम्बर 2001

नायब सूबेदार मनमोहन सिंह (जेसी-488790 एन), 3 अप्रैल 2002*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2001 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मोहिन्द्र सिंह (जेसी-488804 एच), 1 फरवरी 2002*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2001 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार महेश सिंह (जेसी-488806 एन), 4 दिसम्बर 2001*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2001 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार धर्मवीर (जेसी-488547 डब्ल्यू), 28 मई 2002*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 नवम्बर 2001 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जय नारायण (जेसी-488559 एल), 14 नवम्बर 2001

विशेष सूची

राजपूत रैजिमेंट

सूबेदार मेजर (धर्म लिपिक) के रूप में

सूबेदार धर्म लिपिक रमेन्द्र नाथ त्रिपाठी (जेसी-82842 पी), 01 फरवरी 2002

सूबेदार (धर्म लिपिक) के रूप में

नायब सूबेदार धर्म लिपिक शिव कुमार जोशी (जेसी-158230 एच), 01 मई 96

नायब सूबेदार धर्म लिपिक कृष्ण गोपाल शर्मा (जेसी-212466 वाई), 01 मई 2001

नायब सूबेदार धर्म लिपिक समसुद्दिन यानूस (जेसी-220846 एच), 01 जुलाई 2001

नायब सूबेदार धर्म लिपिक गणेश प्रसाद मिश्र (जेसी-224158 एल),
01 जुलाई 2001

नायब सूबेदार धर्म लिपिक परमा नन्द नगेन्द्र (जेसी-220845 के),
01 फरवरी 2001

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रूप में

धमेन्द्र नाथ चतुर्वेदी (जेसी-479131 एक्स), 25 जुलाई 2002

अभिमन्यु दूबे (जेसी-479132 ए), 25 जुलाई 2002

जम्मू और काश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार मेजर की पदोन्नति के लिए

सूबेदार लिपिक अब्दुल रशीद परी (जेसी-202140 पी), 01 जनवरी
2003

सेस सूबेदार की पदोन्नति के लिए

सूबेदार (आर टी) मनोज कुमार राए (जेसी-592039 एम), 01
नवम्बर 2002

नायब सूबेदार प्रीतम लाल (जेसी-592669 एम), 03 जनवरी 2002

नायब सूबेदार औम सिंह (जेसी-592706 पी), 01 जून 2002

नायब सूबेदार मौहम्मद रशीद (जेसी-592729 डब्ल्यू), 01 अक्टूबर-
2002

नायब सूबेदार (आर टी) की पदोन्नति के लिए

रिक्रूट आर टी चतुरेश कुमार द्विवेदी (जेसी-592837 ए), 04 फरवरी
2002

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार (धर्म गुरु) के रैंक में

गजेन्द्र प्रताप मिश्रा (जेसी-469215 एक्स), 02 अगस्त 2002

धमेन्द्र कुमार तिवारी (जेसी-469216 ए), 02 अगस्त 2002

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-468705 वाई), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार रघुवीर सिंह (जेसी-468448 एम), 01 अगस्त 2000

नायब सूबेदार सुगन सिंह शेखावत (जेसी-468374 एच), 17 जुलाई
2001

नायब सूबेदार मांगू सिंह (जेसी-468383 के), 23 अगस्त 2001

नायब सूबेदार गोपाल सिंह शेखावत (जेसी-468556 डब्ल्यू), 01
सितम्बर 2001

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-468497 पी), 01 अक्टूबर 2001

नायब सूबेदार रणछेर सिंह (जेसी-468557 वाई), 12 अक्टूबर 2001

नायब सूबेदार रविन्द्र कुमार राणा (जेसी-468610 वाई), 01 नवम्बर
2001

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह राठौर (जेसी-468626 के), 12 दिसम्बर
2001

नायब सूबेदार सुमेर सिंह (जेसी-468648 एच), 01 जनवरी 2002

नायब सूबेदार राजवीर (जेसी-468743 पी), 18 फरवरी 2002

नायब सूबेदार भगवान सहाय जाट (जेसी-468587 डब्ल्यू), 01 मई
2002

नायब सूबेदार सवाई सिंह राठौर (जेसी-468745 ए), 01 जुलाई 2002

नायब सूबेदार भूर सिंह (जेसी-468747 एल), 01 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार सांवरमल दुलार (जेसी-468627 एम), 01 नवम्बर
2002

9 जी आर

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार नरसिंह वर्मा (जेसी-629200 डब्ल्यू), 08 अक्टूबर
2001/01 सितम्बर 2001*

नायब सूबेदार मुख राम यादव (जेसी-629262 डब्ल्यू), 01 दिसम्बर
2002

*(सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
ज्येष्ठता दी जायेगी)

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार लेख बहादुर क्षेत्री (जेसी-211418 एम), 01 नवम्बर 2001

सूबेदार सुरेश बहादुर मल्ल (जेसी-629005 वाई), 12 अप्रैल 2002/01
दिसम्बर 2001*

सूबेदार रामू क्षेत्री (जेसी-208467 के), 11 मई 2002/01 मई 2002*

सूबेदार नेत्र बहादुर शाही (जेसी-224334 एक्स), 01 नवम्बर 2002

सूबेदार चेतन बहादुर क्षेत्री (जेसी-629055 के), 01 जनवरी 2003

सूबेदार शेर बहादुर खडका (जेसी-629052 डब्ल्यू), 02 जनवरी
2003/01 जनवरी 2003*

सूबेदार राम चन्द्र खडका क्षेत्री (जेसी-629067 वाई), 01 जनवरी
2003

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
ज्येष्ठता दी जाएगी)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार शेर बहादुर कार्की (जे.सी.-629314 एफ), 04 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*

नायब सूबेदार धन बहादुर जीसी (जे.सी.-629318 एक्स), 04 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*

नायब सूबेदार शेर बहादुर (जे.सी.-629319 ए), 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार श्याम बहादुर क्षेत्री (जे.सी.-629399 एच), 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह ठाकुर (जे.सी.-629404 एच), 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार राजेन्द्र मल्ल (जे.सी.-629315 के), 27 दिसम्बर 2002/01 दिसम्बर 2002*

नायब सूबेदार प्रेम बहादुर क्षेत्री (जे.सी.-629380 पी), 22 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002*

नायब सूबेदार दिल बहादुर खत्री (जे.सी.-629377 के), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार किशन बहादुर क्षेत्री (जे.सी.-629394 के), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार खिम बहादुर मल्ला (जे.सी.-629300 एफ), 30 अक्टूबर 2002/01 अक्टूबर 2002*

नायब सूबेदार टेक बहादुर क्षेत्री (जे.सी.-629360 डब्ल्यू), 08 अक्टूबर 2002/01 अक्टूबर 2002*

नायब सूबेदार नवीन कुमार निरोला (जे.सी.-629401 पी), 01 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार मीन बहादुर केसी (जे.सी.-629393 एफ), 07 दिसम्बर 2002/01 अक्टूबर 2002*

नायब सूबेदार दुर्गा बहादुर क्षेत्री (जे.सी.-629397 एक्स), 17 जुलाई 2002/01 जुलाई 2002*

नायब सूबेदार झलक बहादुर खत्री (जे.सी.-629376 एफ), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार प्रेम बहादुर क्षेत्री (जे.सी.-629389 वाई), 31 अक्टूबर 2002/01 मई 2002*

नायब सूबेदार कमल बहादुर अधिकारी (जे.सी.-629392 वाई), 31 अक्टूबर 2002/01 अगस्त 2002*

नायब सूबेदार खरक मान क्षेत्री (जे.सी.-629357 डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार कृष्णा बहादुर मल्ला (जे.सी.-629396 पी), 11 अक्टूबर 2002/01 सितम्बर 2002*

3—34 GI/2003

नायब सूबेदार सालिग राम खडका (जे.सी.-629348 एफ), 07 जून 2002/01 मई 2002*

नायब सूबेदार तेज बहादुर केसी (जे.सी.-629375 वाई), 01 मई 2002

नायब सूबेदार चन्द्र बहादुर क्षेत्री (जे.सी.-629306 एच), 25 अक्टूबर 2002/14 मई 2002*

नायब सूबेदार राजेन्द्र खत्री क्षेत्री (जे.सी.-629390 एन), 04 जुलाई 2002/24 मई 2002*

नायब सूबेदार शेर बहादुर ठकुरी (जे.सी.-629385 एच), 17 जुलाई 2002/01 जून 2002*

नायब सूबेदार होम बहादुर क्षेत्री (जे.सी.-629395 एम), 17 जुलाई 2002/01 जुलाई 2002*

नायब सूबेदार अमर बहादुर ठकुरी (जे.सी.-629347 एम), 13 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*

नायब सूबेदार दामोदर प्रसाद मल्ल (जे.सी.-629374 डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2002

नायब सूबेदार कृष्ण बहादुर लमीछना (जे.सी.-629388 डब्ल्यू), 22 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*

नायब सूबेदार गोपाल बहादुर क्षेत्री (जे.सी.-629366 एक्स), 01 मई 2002

नायब सूबेदार दन बहादुर भुजेल (जे.सी.-629383 एक्स), 14 जून 2002/01 मई 2002*

नायब सूबेदार रत्न बहादुर थापा (जे.सी.-629367 के), 01 मई 2002

नायब सूबेदार रत्न बहादुर क्षेत्री (जे.सी.-629381 एम), 21 मार्च 2002/01 फरवरी 2002*

नायब सूबेदार यदु नाथ पांडे क्षेत्री (जे.सी.-629370 ए), 04 फरवरी 2002/01 फरवरी 2002*

नायब सूबेदार विनोद कुमार खत्री (जे.सी.-629382 के), 25 मार्च 2002/01 फरवरी 2002*

नायब सूबेदार मन बहादुर घर्ती (जे.सी.-629359 एम), 13 मार्च 2002/09 मार्च 2002*

नायब सूबेदार धिर बहादुर क्षेत्री (जे.सी.-629386 एल), 27 मार्च 2002/01 मार्च 2002

नायब सूबेदार यक बहादुर थापा (जे.सी.-629387 एन), 21 मार्च 2002/01 मार्च 2002*

नायब सूबेदार गोपाल प्रसाद ढकाल (जे.सी.-629340 एच), 06 जनवरी 2002/01 जनवरी 2002*

नायब सूबेदार मिन बहादुर खत्री (जे.सी.-629341 एल), 10 जनवरी 2002/01 जनवरी 2002*

नायब सूबेदार भीम बहादुर क्षेत्री (जे.सी.-629342 एन), 16 जनवरी 2002/01 जनवरी 2002*

नायब सूबेदार गणेश बहादुर क्षेत्री (जे.सी.-629363 के), 15 फरवरी 2002/01 जनवरी 2002*

नायब सूबेदार खगेन्द्र बहादुर ढकाल क्षेत्री (जे.सी.-629364 एम), 04 जनवरी 2002/01 जनवरी 2002*

नायब सूबेदार लाल बहादुर थापा (जे.सी.-629349 एक्स), 01 फरवरी 2002

नायब सूबेदार रतन कुमार क्षेत्री (जे.सी.-629334 पी), 02 फरवरी 2002/01 जनवरी 2002*

नायब सूबेदार हरी बहादुर क्षेत्री (जे.सी.-629326 डब्ल्यू), 09 जनवरी 2002/01 जनवरी 2002*

नायब सूबेदार हुम बहादुर बसनेट क्षेत्री (जे.सी.-629338 ए), 02 फरवरी 2002/01 जनवरी 2002*

नायब सूबेदार नरायन बहादुर क्षेत्री (जे.सी.-629343 डब्ल्यू), 06 फरवरी 2002/01 जनवरी 2002*

नायब सूबेदार कुल बहादुर क्षेत्री (जे.सी.-629344 एक्स), 12 फरवरी 2002/01 जनवरी 2002*

नायब सूबेदार भगत कुमार परसाई (जे.सी.-629339 एन), 31 जनवरी 2002/01 जनवरी 2002*

नायब सूबेदार करन बहादुर शाही (जे.सी.-629352 एक्स), 14 जनवरी 2002/01 नवम्बर 2001*

नायब सूबेदार शेर बहादुर थापा (जे.सी.-629310 एल), 11 फरवरी 2002/01 दिसम्बर 2001*

नायब सूबेदार महेन्द्र बहादुर अधिकारी (जे.सी.-629311 एन), 01 सितम्बर 2002/01 जनवरी 2002*

नायब सूबेदार देब बहादुर क्षेत्री (जे.सी.-629305 ए), 01 जनवरी 2002

नायब सूबेदार तिल बहादुर ठकुरी (जे.सी.-629320 पी), 09 जनवरी 2002/01 जनवरी 2002*

नायब सूबेदार कृष्ण बहादुर क्षेत्री (जे.सी.-629333 एम), 14 फरवरी 2002/01 जनवरी 2002*

नायब सूबेदार रन बहादुर खत्री (जे.सी.-629317 पी), 30 अक्टूबर 2001/01 अक्टूबर 2001

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह थापा (जे.सी.-629324 एल), 04 मार्च 2002/01 अक्टूबर 2001*

नायब सूबेदार खुम बहादुर थापा क्षेत्री (जे.सी.-629338 एल), 01 अक्टूबर 2001

नायब सूबेदार निर्मल थापा (जे.सी.-629346 के), 25 जनवरी 2002/01 अक्टूबर 2001*

नायब सूबेदार जंग बहादुर (जे.सी.-629350 एम), 24 अप्रैल 2002/01 अक्टूबर 2001*

नायब सूबेदार राम बहादुर चन्द ठकुरी (जे.सी.-629351 पी), 14 दिसम्बर 2001/07 अक्टूबर 2001*

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता दी जाएगी।

3 जी आर

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार चन्द्र बहादुर राना (जे.सी.-607342 एन), 14 नवम्बर 2002/01 मई 2002*

नायब सूबेदार मोहन प्रसाद गुरुंग (जे.सी.-607264एफ), 27 जुलाई 2002/01 जुलाई 2002*

नायब सूबेदार हरी प्रसाद राना (जे.सी.-607290 एच), 06 जुलाई 2002/01 जुलाई 2002*

नायब सूबेदार झपिन्द्र बहादुर थापा (जे.सी.-607341 एल), 27 अक्टूबर 2002/01 जुलाई 2002*

नायब सूबेदार कुल प्रसाद प्रधान (जे.सी.-607302 एम), 09 जुलाई 2002/01 जुलाई 2002*

नायब सूबेदार शिव बहादुर थापा (जे.सी.-607310 एल), 25 जुलाई 2002/01 जुलाई 2002*

नायब सूबेदार गज बहादुर थापा (जे.सी.-607294 वाई), 02 नवम्बर 2001

नायब सूबेदार पूरन बहादुर गुरुंग (जे.सी.-607274 एल), 11 जनवरी 2002/01 जनवरी 2002*

नायब सूबेदार मन सिंह (जे.सी.-607282 के), 10 मार्च 2002/01 जनवरी 2002*

नायब सूबेदार हर्क बहादुर थापा (जे.सी.-607258 एन), 11 फरवरी 2002/01 जनवरी 2002*

नायब सूबेदार करन बहादुर थापा (जे.सी.-607284 पी), 09 फरवरी 2002/01 जनवरी 2002*

नायब सूबेदार श्याम बहादुर थापा (जे.सी.-607304 एक्स), 04 जुलाई 2002/01 जनवरी 2002*

नायब सूबेदार जग बहादुर थापा (जे.सी.-607298 पी), 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार देब बहादुर थापा (जे.सी.-607305 ए), 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार रेख सिंह गुरुंग (जे.सी.-607330 वाई), 27 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*

नायब सूबेदार तिलक बहादुर थापा (जे.सी.-607332 के), 25 दिसम्बर 2002/29 नवम्बर 2002*

नायब सूबेदार नवीन तमंग (जे.सी.-607308 एन), 01 दिसम्बर 2002
नायब सूबेदार चक्र बहादुर थापा (जे.सी.-607348 पी), 01 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार नूर बहादुर थापा (जे.सी.-607326 डब्ल्यू), 30 अक्टूबर 2002/01 अक्टूबर 2002*

नायब सूबेदार बीर बहादुर आर्ले (जे.सी.-607327 वाई), 30 अक्टूबर 2002/01 अक्टूबर 2002*

नायब सूबेदार युब कुमार गुरुंग (जे.सी.-607328 एफ), 30 अक्टूबर 2002/01 अक्टूबर 2002*

नायब सूबेदार लाल बहादुर झेडी (जे.सी.-607329 के), 30 अक्टूबर 2002/01 अक्टूबर 2002*

नायब सूबेदार पासू राम बूडाथोकी (जे.सी.-607344 वाई), 27 अक्टूबर 2002/01 अक्टूबर 2002*

नायब सूबेदार दूध बहादुर गुरुंग (जे.सी.-607347 एम), 21 दिसम्बर 2002/01 अक्टूबर 2002*

नायब सूबेदार रूम बहादुर पुन (जे.सी.-607343 डब्ल्यू), 27 अक्टूबर 2002/01 जुलाई 2002*

नायब सूबेदार दिवान सिंह (जे.सी.-607257 एल), 25 सितम्बर 2002/01 अगस्त 2002*

नायब सूबेदार नरेश थापा (जे.सी.-607259 डब्ल्यू), 15 अगस्त 2002/01 अगस्त 2002*

नायब सूबेदार हरी बहादुर थापा (जे.सी.-607265 के), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार खडका बहादुर थापा (जे.सी.-607272 के), 17 अगस्त 2002/01 अगस्त 2002*

नायब सूबेदार यम बहादुर गुरुंग (जे.सी.-607295 एफ), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार राम बहादुर गुरुंग (जे.सी.-607324 के), 03 अक्टूबर 2002/01 अगस्त 2002*

नायब सूबेदार दल बहादुर राना (जे.सी.-607325 एल), 01 अक्टूबर 2002/01 सितम्बर 2002*

नायब सूबेदार प्रेम सिंह थापा (जे.सी.-607276 डब्ल्यू), 24 अक्टूबर 2002/01 अक्टूबर 2002*

नायब सूबेदार गनेश प्रसाद राई (जे.सी.-607260 एल), 01 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार ज्ञान बहादुर राना (जे.सी.-607296 के), 24 अक्टूबर 2002/01 अक्टूबर 2002*

नायब सूबेदार दिल बहादुर गुरुंग (जे.सी.-607311 एन), 23 अक्टूबर 2002/01 अक्टूबर 2002*

नायब सूबेदार सोबित बहादुर थापा (जे.सी.-607306 एक्स), 11 सितम्बर 2002/01 जनवरी 2002*

नायब सूबेदार गिर बहादुर थापा (जे.सी.-607321 वाई), 11 सितम्बर 2002/01 जनवरी 2002*

नायब सूबेदार नेत्र बहादुर थापा (जे.सी.-607213 एन), 10 फरवरी 2002/01 फरवरी 2002*

नायब सूबेदार चेत बहादुर गुरुंग (जे.सी.-607233 एफ), 10 फरवरी 2002/01 फरवरी 2002*

नायब सूबेदार ज्ञान बहादुर पुन (जे.सी.-607242 एच), 10 फरवरी 2002/01 फरवरी 2002*

नायब सूबेदार अमर बहादुर पुन (जे.सी.-607307 एल), 11 सितम्बर 2002/01 फरवरी 2002*

नायब सूबेदार नोरभू श्रिंग भोटिया (जे.सी.-607245 डब्ल्यू), 25 मई 2002/01 अप्रैल 2002*

नायब सूबेदार बाबू राम शर्मा (जे.सी.-607256 एच), 07 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*

नायब सूबेदार मन बीर गुरुंग (जे.सी.-607247 एफ), 12 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*

नायब सूबेदार राज बहादुर थापा (जे.सी.-607263 वाई), 12 मई 2002/01 अप्रैल 2002*

नायब सूबेदार धर्म धोज गुरुंग (जे.सी.-607271 एक्स), 19 अगस्त 2002/01 अप्रैल 2002*

नायब सूबेदार भीम राज गुरुंग (जे.सी.-607285 एक्स), 20 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*

नायब सूबेदार नून बहादुर गुरुंग (जे.सी.-607289 एक्स), 01 अप्रैल 2002

नायब सूबेदार जगत राम गुरुंग (जे.सी.-607287 एच), 12 मई 2002/01 अप्रैल 2002*

नायब सूबेदार बिदुर थापा (जे.सी.-607293 डब्ल्यू), 12 मई 2002/01 अप्रैल 2002*

नायब सूबेदार डम्बर बहादुर थापा (जे.सी.-607318 एक्स), 16 अक्टूबर 2002/01 अप्रैल 2002*

नायब सूबेदार चन्द्र कुमार तमंग (जे.सी.-607322 ए), 22 अक्टूबर 2002/01 अप्रैल 2002*

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार थापा (जे.सी.-607331 एफ), 16 अक्टूबर 2002/01 अप्रैल 2002*

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता दी जाएगी।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार गणेश बहादुर घर्ती (जे.सी.-221069 एफ), 01 अक्टूबर 2001

सूबेदार सन्त बहादुर खड्का (जे.सी.-220337 एन), 01 नवम्बर 2001

सूबेदार रत्न बहादुर पुन (जे.सी.-202154 पी), 23 मई 2002/01 अप्रैल 2002

सूबेदार सुक बहादुर राना (जे.सी.-218117 एल), 01 अप्रैल 2002

सूबेदार कृष्ण बहादुर थापा (जे.सी.-224490 एफ), 08 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002

सूबेदार यम बहादुर गुल्लंग (जे.सी.-607052 डब्ल्यू), 02 जुलाई 2002/01 जुलाई 2002

सूबेदार श्याम बहादुर थापा (जे.सी.-607082 एन), 01 अगस्त 2002

सूबेदार एम बहादुर पुन (जे.सी.-607115 एन), 01 अक्टूबर 2002

सूबेदार ठग बहादुर कार्की (जे.सी.-607116 डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2002/01 अक्टूबर 2002

सूबेदार लाल बहादुर थापा (जे.सी.-220835 ए), 29 नवम्बर 2002

सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता दी जाएगी।

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार ठकुर बहादुर राना भट्ट (जे.सी.-607190 एक्स), 01 अक्टूबर 2001/ 12 नवम्बर 2001*

नायब सूबेदार रोहतास (जे.सी.-607216 एफ), 15 नवम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जे.सी.-607189 एच), 03 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2001*

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी।

सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में

सूबेदार बासु देव प्रसाद (जे.सी.-224330 एफ), 12 मार्च 2002/01 मार्च 2002

विशेष सूची

भजान्व रजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सलीम राम (जे.सी.-212818 एल), 01 अगस्त 2002

सूबेदार तरलोक सिंह (जे.सी.-428098 एच), 01 अगस्त 2002

सूबेदार दर्शन सिंह (जे.सी.-203622 डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2002

सूबेदार जसबीर सिंह (जे.सी.-205007 एक्स), 01 सितम्बर 2002

सूबेदार जरनैल सिंह (जे.सी.-212816 ए), 01 अक्टूबर 2002

सूबेदार केवल सिंह (जे.सी.-210927 वाई), 01 नवम्बर 2002

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क मोहन लाल (जे.सी.-428644 के), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार क्लर्क सरबजीत सिंह (जे.सी.-428650 एक्स), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार क्लर्क कीर्त राम गुप्ता (जे.सी.-428651 ए), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार क्लर्क सुरजीत सिंह चौहान (जे.सी.-428678 एक्स), 01 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार क्लर्क रविन्द्र कुमार पटियाल (जे.सी.-428679 ए), 01 नवम्बर 2002

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जगतार सिंह (जे.सी.-428910 एक्स), 01 दिसम्बर 2001

नायब सूबेदार गुरचरण सिंह (जे.सी.-428919 एम), 15 अप्रैल 2002

नायब सूबेदार रमेश कुमार चावला (जे.सी.-428929 डब्ल्यू), 01 मई 2002

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जे.सी.-428764 एच), 01 जून 2002

नायब सूबेदार जसविन्द्र पाल सिंह (जे.सी.-428921 के), 01 जून 2002

नायब सूबेदार कर्म सिंह सेन (जे.सी.-428940 पी), 01 जून 2002

नायब सूबेदार ठाकरा सिंह (जे.सी.-428875 ए), 01 जून 2002

नायब सूबेदार राजकुमार (जे.सी.-428969 एक्स), 01 जून 2002

नायब सूबेदार गुणनाम सिंह (जे.सी.-429003 के), 01 जून 2002

नायब सूबेदार मन्नीत सिंह (जे.सी.-429012 एल), 01 जून 2002

नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जे.सी.-429013 एन), 01 जून 2002

नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जे.सी.-429027 एन), 01 जून 2002

नायब सूबेदार विजय वर्मा (जे.सी.-428880 एल), 16 जून 2002

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जे.सी.-428581 एम), 01 जुलाई 2002

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे.सी.-428811 पी), 01 जुलाई 2002

नायब सूबेदार तिलक राज (जे.सी.-428441 ए), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार तारा चन्द (जे.सी.-428565 पी), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार राज कुमार (जे.सी.-428672 डब्ल्यू), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार देश राज (जे.सी.-428829 एल), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार विजय पाल (जे.सी.-428911ए), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार मुलक राज (जे.सी.-428816 एन), 04 अगस्त 2002

नायब सूबेदार जसवंत सिंह (जे.सी.-428640 एन), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार जीत सिंह (जे.सी.-428747 एच), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार पृथ्वी चन्द (जे.सी.-428792 पी), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जे.सी.-428760 एम), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार सतनाम सिंह (जे.सी.-428895 एन), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार बीरबल सिंह (जे.सी.-428930 एल), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार सुरिन्द्र सिंह (जे.सी.-428980 डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार जसवंत सिंह (जे.सी.-429004 एम), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार सुखचैन सिंह (जे.सी.-428610 डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जे.सी.-428709 एम), 01 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जे.सी.-428762 एक्स), 01 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार मनजीत सिंह (जे.सी.-428813 ए), 01 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार जीवन दास राणा (जे.सी.-428863 एल), 01 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार सतीश कुमार (जे.सी.-428977 डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जे.सी.-428878 एन), 07 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार हरभजन सिंह (जे.सी.-428815 एल), 08 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार सविन्दर सिंह (जे.सी.-428951 एफ), 26 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार मोहिन्दर लाल (जे.सी.-428851 डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जे.सी.-428860 एक्स), 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जे.सी.-428904 वाई), 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार बलदेव राज (जे.सी.-428881 एन), 01 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार रोमेश चन्द (जे.सी.-428925 ए), 01 दिसम्बर 2002

दिवाकर
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 258, दिनांक 25 मार्च 03.—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों का दिनांक 04.08.2000 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

एरिता पीरकीडी, एम बीबीएस (एम एस-13533-F) अब (एम आर-07595-L), ए एम सी, 03.12.97, वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 03.06.97 से हो जायेगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 5.2.2000 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

(श्रीमती) श्रीनिवासन शीवा के, एम बीबीएस (एम एस-13104-ए) अब (एम आर-07585-एफ), ए एम सी, 27.09.96, वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 27.09.95 से हो जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता, डिप्लोमा (वेकट्रीयोलॉजी) के लिए दी गई 12 महीने की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 09.03.2002 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों का दिनांक 06.12.2000 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन इसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

संजय कुमार, एम बीबीएस (एम एस-13352-डब्ल्यू) अब (एम आर-07771 एक्स), ए एम सी, 04.12.1997, वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता से हो जायेगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई की पूर्व वरिष्ठता शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत

सरकार के राजपत्र के दिनांक 17.07.1999 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

फ्लाईट लेफ्टी के पद पर

(श्रीमती) पदमाश्री जैन, एम बीबीएस (एम एस-12583-ए) अब (ए एफ-22480) अब (एम आर 07661-एच), ए एम सी, 30.06.93, वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 30.06.91 से हो जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता, एम डी (ओबस्टे. & गाईने.) के लिए दी गई 24 महीने की पूर्व वरिष्ठता शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12.07.1997 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों का दिनांक 24.09.2001 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

विवेक भारती शर्मा, एम बीबीएस (एम एस-13333-एल) अब (एम आर-07683-एफ), ए एम सी, 10.11.1997, वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता से हो जायेगी। इसमें के

लिए दी गई की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 14.11.98 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

के बी एन एस डोड़

बिग्रेडियर

उप महानिदेशक (कार्मिक)

सेना शाखा

शुद्धिपत्र

सं. 259, दिनांक 20 मार्च, 03.—भारत सरकार के राजपत्र सं. 16 दिनांक 21 अप्रैल 2001 में से प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. 208 दिनांक 15 मार्च 2001 में शीर्षक नियमित सेना उप शीर्षक इन्फैंट और महार रेजिमेंट के नीचे नायब सूबेदार के रैंक में:-

के सामने :-हवलदार लिपिक जी डी रामफल सिंह तोमर (4549475 पी अब जेसी-568886 के) 01 सितम्बर 2000

के स्थान पर :-हवलदार लिपिक जी डी रामफल सिंह तोमर

पढ़ा जाए :-हवलदार लिपिक जी डी रामपाल सिंह तोमर

दिवाकर

अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE
New Delhi, the 26th April, 2003

(ARMY BRANCH)

No. 249, dated 20 March, 03.—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY

Infantry

The Sikh Regiment

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Shri Baldev Singh (JC-499120M), 27 Jul 02

DIWAKAR
Under Secy.

No. 250, dated 26 March, 03.—The President is pleased to make the following appointment:—

(REGULAR ARMY)

PERMANENT COMMISSION

(To be Lts w.e.f. 12 Dec.98)

Mriganka Paul (IC-58233M) EME seniority next below Braj Bhushan Mishra (IC-58232K) Arty, Sachin Shivraj Randale (IC-58244Y) Arty seniority next below S.Karthik Venkateswaran (IC-58243W) Inf, Sambit Shatadal Pattajoshi (IC-58287N) Arty seniority next below Saminder Singh (IC-58286L) Mech, Bharat Singh Rawat (IC-58324W) Armd Corps & Manav Kumar Sharma (IC-58325Y) AOC seniority next below Vishwas Bahukhandi (IC-58323N) Inf, Pravin Motiramji Ganorkar (IC-58382A) Arty Seniority next below Manoj Kumar Singh (IC-58381X) Engrs, Harish Chandra Pant (IC-58414X) EME & Akshay Kalia (IC-58415A) Arty seniority next below Jogender Nath Sharma (IC-58413P) Sigs, Praveen Tomar (IC-58420L) ASC seniority next below Dharamveer Singh (IC-58419W) Inf, Gupta Manish (IC-58425K) Arty, Navneet Kumar (IC-58426M) EME & Kaushik Ray (IC-58427P) Arty seniority next below Sukhbir Aujla (IC-58424F), Sigs, Shailendra Kumar Gupta (IC-58431X), Arty seniority next below Amit Soni (IC-58430P) Inf, Santhosh Vinsent (IC-58434L) Inf seniority next below Tanvir Singh Mann (IC-58433H), Inf, Ashish Chandra (IC-58437Y) Inf seniority next below Nandula Sunil (IC-58436W) Arty, Rajeev Nayan (IC-58510M) Inf seniority next below Satyesh Yadav (IC-58509X) AOC and Soumitra Kumar Pattnaik (IC-58531H) AD seniority next below Siddhartha Shanker Singh (IC-58530A) ASC whose names appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 22 April 2000.

S. S. DHANKHAR
Lt Col
AMS 8B

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATION

No. 251, dated 25 March, 2003.—The President is pleased to make the following appointment:—

Dr. A.R. James to be temporary Scientist 'C' (Group 'A') in the Defence Research & Development Service on probation for a period of one year with effect from 25.09.2001 in SSPL Delhi in the Pay Scale of Rs.10000-325-15200.

Shri Ram Singh to be temporary Scientist 'B' (Group 'A') in the Defence Research & Development Service on probation for a period of two years with effect from 01.02.1999 in the pay scale of Rs. 8000-275-13500 and posted in CEMILAC, Bangalore.

The undermentioned individual(s) to be temporary Scientist 'B' (Group A) in the Defence Research & Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 8000-275-13500 :—

Sl. No.	Name	Estt.	Date
1.	Ms. C.M. Bhuvaneswari	HEMRL, Pune	11.07.2001
2.	Shri Param Pal Chhabra	-do-	-do-
3.	Shri Sandeep Sharma	ARDE, Pune	-do-
4.	Shri Dharm Raj Singh	-do-	-do-
5.	Shri Nitin Verma	DEAL, Dehradun	-do-
6.	Shri Pankaj Gupta	ITR, Balasore	-do-
7.	Shri Anil Kumar Upadhyay	RDE (E), Pune	-do-
8.	Shri Surendra Kumar Agarwal	ADE, Bangalore	29.01.1999
9.	Ms Varsha Agarwal	-do-	03.02.1999
10.	Shri X Michael Williams	GTRE, B 'lore'	02.04.2001
11.	Shri Satish N Astikar	-do-	07.02.2001
12.	Shri Parvin Kumar Singh	NMRL, Addl Ambernath	07.11.2000
13.	Ms Ruchi Srivastava	ADE, B 'lore'	01.03.2001
14.	Shri Vikram Kanoi	CAIR, -do-	30.01.2001
15.	Ms A. Karuna	-do-	19.02.2001
16.	Shri G. Saroj Kumar	LRDE, Bangalore	29.09.2000
17.	Shri S.Neelamegam	LRDE, -do-	28.03.2000
18.	Shri V.A. Moorthi Paramasivam	CAIR, -do-	23.03.2000
19.	Shri Sreenath Bhat B	ASIEO, -do-	06.04.2000
20.	Shri Rajesh Kumar	GTRE, -do-	29.02.2000
21.	Shri Manuj Sharma	LRDE, -do-	23.03.2001

J.K. KHADWAL
Jt. Dir (Pers)

"NATIONAL CADET CORPS"

No.252, dated 24 March, 03.—The undermentioned is granted the rank of Colonel-in-Chief of the National Cadet

Corps for the period of his appointment as Chief of the Army Staff:—

General NC Vij, PVSM, UYSM, AVSM, ADC, Chief of the Army Staff, 01 Jan 2003.

SATISH BAHL
Brig.
Dy. Director General (MS)

(ARMY BRANCH)

No. 253, dated 25 March, 03.—The President is pleased to make the promotion of the undermention AMC officer with effect from the date mentioned against him :—

(REGULAR ARMY)

PERMANENT COMMISSION

CAPT TO BE MAJOR

Vivek Bharti Sharma (MS-13333-L) (MR-07683-F), AMC
10.11.2001

Sanjay Kumar (MS-13352-W) (MR-07771-X), AMC
04.12.2001

A. Rita Porkodi (MS-13533-F) now (MR-07595-L), AMC
03.06.2001

Srinivasan Shoba K. (MR-07585-F) (MS-13104-A), AMC
27.09.2000

To be CAPT

Vishal Gautam (MR-07164-Y), AMC 18.05.1999

Gargi Biswas (MR-07526-P), AMC 05.02.2002

Santosh Karade (MR-07562-A), AMC 05.02.2002

Parikshit Singh Chauhan (MR-07646-N), AMC
16.07.2002

N. Subramanyam (MR-07654-M), AMC 16.7.2002

Flt Lt to be Sqd Ldr

(Mrs) PADMASHRI JAIN (MS-12583-A) (22480-N)
(MR-07661-H), AMC, 30.06.1996. (MoD Notification
published in the Gazette of India dated 10.07.1999 in so far
as it relates to the officer is hereby cancelled)

K B N S DOD
Brigadier
Dy. DGAFMS (P)

No. 254, dated 24 March, 2003.—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

CAPT TO BE MAJ

IC-44642, Jagdish Chand, Arty 13 June 1998

IC-48954 SK Rath, AEC 29 Oct 2000

(But for pay & allowances wef 29 Oct 2001)

IC No, Name & Arm

51467 Arun Malik, M/Inf

51468 Gopi Singh, Inf

51470 N Kaushik, Engrs

51471 B Mathew, AOC

51472 JS Yadav, Engrs

51473 R Krishan, Sigs

51475 A Talwar, AC

51476 PS Chhonkar, Inf

51477 A Chadha, Engrs

51478 SA Maskeri, Engrs

51480 J Chauhan, AD Arty

51481 SS Bisht, Inf

51483 TV Reddy, Mech/Inf

51484 M Ashish, ASC

51485 S Sharma, Arty

51486 Yashvir Singh, ASC

51487 Uttam Dixit, Inf

51488 JP Singh, Arty

51490 T Narula, AD Arty

51491 Lawinder Singh, Inf

51493 R Vanguru, Sigs

51494 D Pathania, Inf

51496 Anil Chaudhary, Inf

51498 Amitabh Roy, Arty

51499 A Sharma, Arty

51501 TYS Bedi, Inf

51502 SD Rechmale, EME

51504 Virender, ASC

51506 S Banerjee, Inf

51507 Rajbir Singh, Arty

51508 PP Singh, Inf

51509 Ajay Kumar, Inf

51511 AS Rathore, ASC

51512 B Sheopuri, EME

51513 SS Rajamani, Sigs

51514 P Kabthiyal, Inf

51515 SK Sharma, Inf

51516 GS Bajwa, Arty

51517 JS Verma, Sigs	51565 JB Singh, Engrs
51518 CS Agrawal, Inf	51567 F Thomas, ASC
51519 H/S Chhatwal, AD Arty	51568 R Singh, Inf
51520 HB Gramopadhye, Inf	51569 SK Nayak, Sigs
51521 AK Srivastava, Inf	51570 A Misra, AD Arty
51522 A Kundoo, ASC	51571 NS Rawat, Engrs
51524 BS Negi, Inf	51573 JG Gopalan, AC
51525 A Singh, ASC	51574 DS Basera, Inf
51526 AS Valimbe, Arty	51575 Jagdev Singh, ASC
51527 N Arya, Arty	51576 Rohit Sondh, Inf
51528 SC Chaturvedi, AOC	51577 BC Roy, AOC
51530 S Mothanty, Inf	51578 Sanatan Singh, Arty
51531 RC Sovani, Sigs	51579 Harmeet Singh, Arty
51532 J Kumar, Inf	51583 Jagdish Chauhan, Engrs
51533 RS Thapa, Inf	51584 V Madhwal, ASC
51535 VS Sangwan, AOC	51585 V Chopra, Engrs
51536 SK Bhambhu, Inf	51586 Ashish Ahuja, Inf
51537 N Harnal, AD Arty	51588 S Muruganathan, Arty
51538 H Bhatia, Sigs	51590 R Kumar, Inf
51539 J Singh, Inf	51592 A Patwal, Sigs
51540 R Singh, EME	51593 Balwan Singh, ASC
51541 KS Grewal, Inf	51594 PPS Sandhu, AOC
51542 SK Gupta, Sigs	51598 HPS Shergill, AC
51543 Raju Batra, Engrs	51600 US Udawat, AC
51544 A Sarkar, EME	51601 Uttam Hukku, Arty
51545 R Rathi, ASC	51602 Manish Kumar, Inf
51547 A Mishra, Engrs	51604 S Kumar, ASC
51549 Sandeep Jaswal, Inf	51605 M Saxena, Inf
51550 BS Kadian, ASC	51606 VK Rautela, AD Arty
51552 PN Prasannan, Mech/Inf	51608 D Kundalia, EME
51554 A Gogna, Arty	51609 AS Panwar, Engrs
51555 SK Khara, Inf	51610 J Kapoor, Engrs
51556 RS Thakur, Arty	51611 Anoop Singh, Inf
51557 AK Singh, Inf	51612 N Pillai, Sigs
51558 KK Agarwal, ASC	51613 RH Salian, Engrs
51560 A Jaiswal, EME	51615 P Singh, Inf
51561 OP Lohe, AC	51616 DS Suresh, Arty
51562 Rajbir Singh, AOC	
51564 KS Dhadwal, Inf	

51617 Satish Kumar, Arty	51670 M Rathore, Inf
51618 P Srivastava, AOC	51671 DS Rawat, Arty
51621 ASPS Dogra, EME	51673 GS Yadav, Inf
51622 BVSS Rao, ASC	51674 AS Thakur, AOC
51623 IM Abdi, Arty	51675 KB Venugopal, Inf
51624 Rohit Khare, Inf	51676 Anuj Kumar, AC
51625 S Kaushik, ASC	51677 SS Koyarh, ASC
51626 A Mazumdar, Inf	51679 Saurabh Sharma, Arty
51628 T Kumar, Arty	51680 Rajiv Malhotra, Engrs
51630 CM Bopanna, Mech/Inf	51681 RK Singh, ASC
51632 Deepak Kapoor, Inf	51683 TS Mann, ASC
51633 G Chandra, AD Arty	51684 J Roy, Sigs
51634 SK Nayaham, Inf	51685 JS Sohi, AD Arty
51635 P Wadhwa, Sigs	51686 A Jain, EME
51636 Sirish Singh, ASC	51687 A Gambhir, Engrs
51638 R Manocha, Arty	51688 KB Thapa, Inf
51640 DS Katal, ASC	51689 TV Swamy, Inf
51641 K Raja Gopal, Sigs	51690 Sanjeev Pant, Inf
51642 Navrattan Singh, Inf	51692 VK Bhardwaj, AOC
51643 R Dsouza, Mech/Inf	51693 S Vatsa, Inf
51645 Rahul Dutt, Inf	51694 S Kumar, Engrs
51646 IK Jaggi, Engrs	51696 R Kumar, AD Arty
51647 R Misra, AC	51697 SP Das, AOC
51648 S Kumar, Inf	51699 P Khandurie, ASC
51649 T Sen Gupta, Inf	51703 N Sharma, AOC
51650 V Katoch, EME	51705 JS Sidhu, Arty
51651 G Shah, AD Arty	51706 S Vinod, Inf
51653 RNS Balaji, Engrs	51707 VN Kulkarni, Inf
51654 R Barthwal, AC	51708 DS Shekhawat, Arty
51655 Neeraj Sood, Inf	51709 MS Kalra, Inf
51657 G Gupta, Sigs	51710 N Gumasia, INT
51658 B Ajit, Inf	51711 Sugato Sen, Inf
51659 S Khatri, ASC	51712 AR Pillai, Inf
51662 RR Yadav, AOC	51713 M Saxena, Inf
51663 K Murari, Inf	51714 S Kumar, Inf
51664 IJS Mahal, Engrs	51715 A Sharma, EME
51665 Brijesh Singh, Inf	51716 V Khobragade, AC
51666 R Nathawat, Mech/Inf	51717 DS Punia, ASC
51668 PS Janghu, Inf	51718 A Jaithalia, Arty

51719 R Mishra, Engrs	51786 A Tripathi, Inf
51720 SK Singh, AOC	51787 D Joshi, AC
51724 PS Chahal, AD Arty	51791 L Rehman, Arty
51726 V Tripathi, ASC	51793 Inder Singh, Engrs
51727 Yogendra Singh, Inf	51794 MM Math, Engrs
51728 Atul Bindra, AD Arty	51795 J Verghese ASC
51729 AK Chanda, Engrs	51796 R Singh, Inf
51731 S Srivastava, Sigs	51797 HS Sandhu, Inf
51732 Summet Baxi, Inf	51798 P Naithani, AOC
51733 S Kishore, Inf	51799 VV Madhav, EME
51736 V Jaitley, Arty	51800 KJ Singh, AOC
51737 D Metia, Engrs	51802 Kiran Kumar, AOC
51739 RJ Rao, EME	51803 JS Cheema, Arty
51740 A Chanan, Arty	51805 S Penghal, AOC
51741 A Auddy, Sigs	51808 Vinay Shahi, AOC
51742 R Gupta, ASC	51812 A Suri, AC
51743 A Thorat, Mech/Inf	51813 Amit Purty, INF
51745 As Yadav, Arty	51814 M Joshi, EME
51746 ISR Mani, Sigs	51816 Prateek Kumar, Mech/Inf
51747 Amit Kumar, AOC	51819 CD Kaushal, Engrs
51748 S Pathak, EME	51820 SS Sarthy, Sigs
51749 A Bharti, Engrs	51823 A Negi, EME
51750 G Singh, AC	51825 Bakul Gosain, Inf
51751 Sanjeev Singh, Inf	51826 A Rai, AOC
51754 R Pavithran, Inf	51827 R Kumar, ASC
51755 R Agarwal, Inf	51828 PK Shiva Ganga, AD Arty
51756 S Banjerjee, Sigs	51831 RM Najam, Engrs
51759 PM Kulkarni, INT	51833 Ajit Singh, ASC
51760 MK Rawat, Engrs	51834 P Bhaumik, Arty
51762 GK Mehta, Inf	51835 SS Kashikar, Inf
51763 Parveen Kumar, Inf	51836 Kartik Dutt, Inf
51766 JJ Abraham, Arty	51837 SM Raj, Arty
51767 BS Madhok, AD Arty	51839 Rajiv Rai, Arty
51771 KJ Singh, ASC	51840 S Balodi, Engrs
51772 RP Kashyap, ASC	51842 JS Dhaliwal, AC
51774 HK Jha, Engrs	51843 VP Dwivedi, ASC
51779 RK Tiwari, Sigs	51844 Arpit Thapa, Inf
51780 A Kumar, EME	51846 PA Kapte, Inf
51784 KK Sinha, Inf	51847 CM Peter, Inf

51848 N Vasudevan, Inf
 51849 M Singh, EME
 51852 K Banerjee, AOC
 51853 KTG Krishan, Inf
 51854 Vivek Bhatt, Inf
 51857 SKS Pandey, ASC
 51859 S Sivaraman INT
 51863 R Bakshi, ASC
 51865 S Lamba, Engrs
 51866 PS Tanwar, Inf
 51867 Sanjay Sharma, Inf
 51868 Sanjay Batra, Arty
 51870 KM Rai, Mech/Inf
 51873 M Kanwar, ASC
 51876 Vikas Singh, Inf
 51877 B Mathew, Inf
 51880 Devesh Sinha, Inf
 51882 D Sanghi, AD Arty
 51893 K Naithani, AEC
 51894 MC Joshi, Sigs
 51906 MM Kandwal, AEC

19 Dec. 2002

53457 A Dwivedi, Engrs
 53458 R Prasad, Engrs
 53459 SK Prasad, EME
 53462 AK Roy, Engrs
 53464 AK Uniyal, Sigs
 53466 BG Anil, Engrs
 53467 G Wadhwa, Engrs
 53471 S Sharma, EME
 53472 H Negi, EME
 53474 SR Biswas, Engrs
 53475 S Kumar, Engrs
 53476 A Sharma, Engrs
 53478 M Vasudeva, EME
 53481 MV Alur, EME
 53485 AK Chaturvedi, EME
 53487 SS Juneja, Engrs
 53489 P Khanna, EME

53491 PS Ramesh, EME

53492 P Kumar, Engrs

53493 Praveen B, Sigs

20 Dec. 2002

KS Verma
 Jt. Dir. MS-8C

DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION & SUPPLIES

No.255. dated 21 March, 03—The President is pleased to make following promotions/appointments:—

1. Shri S Vidhyasankar, Assistant-cum-Head Clerk of Broadcasting Corporation of India, All India Radio, Bolangir to be Administrative officer at SQAE(ME), Aruvankadu for a period of 3 years with effect from 05 Dec. 02 (F/N) on deputation basis.

2. Shri SK Sahoo, Assistant of O/o the Assistant Director, Subsidiary (MHA), Intelligence Bureau, Aizawl (Mizoram) to be Administrative Officer at DIQA, Bangalore for a period of 3 years with effect from 30 Dec.02 (F/N) on deputation basis.

3. Shri Mathew Philip, SSS of SQAE(A), Khadki to be Offg. Stores Officer at CQA(ME), Khadki on probation for a period of 02 years with effect from 09 Dec. 02 (F/N).

4. Shri JP Doiphode, OS of CQA(Am.), Khadki to be Offg. Administrative Officer at CQA(ME), Khadki on probation for a period of 02 years with effect from 10 Feb 03 (F/N).

S.N. Tripathi
 Dy. Secy.

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 256. Dated 25 March, 03—The President is pleased to make the following promotions :—

The undermentioned Scientist(s) 'B' to be Scientist(s) 'C' in the Defence Research & Development Service with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs.10000-325-15200:—

S. No.	Name	Estt/Lab	Date
1.	Sh. A.Pasupathi	CVRDE, Chennai	01 July 2002
2.	Sh. A.R. Balasubramanian	-do-	-do-
3.	Sh. R. Muthukumar	-do-	-do-
4.	Sh. Dinesh Kumar Tiwari	CABS, B 'lore'	-do-
5.	Sh. Marla Ranganayakulu	-do-	-do-
6.	Sh. A. Sankar	-do-	-do-

Smt. Usha Rani Puri, Technical Officer 'B' to be Technical Officer 'C' in the Defence Research & Technical Cadre in ISSA, Delhi with effect from 01-09-2002 in the Pay Scale of Rs. 10000-325-15200.

Shri Bhupinder Bharduaj, Technical Officer 'A' to be Technical Officer 'B' (Group 'A') in the Defence Research & Technical Cadre in ISSA, Delhi on probation for a period of two years with effect from 01-09-2002 in the Pay Scale of Rs. 8000-275-13500.

The undermentioned Senior Technical Assistants to be Technical Officers 'A' (Group 'B' Gazetted) in the Defence Research & Technical Cadre in ISSA, Delhi with effect from 01-09-2002 in the Pay Scale of Rs. 7450-225-11500:—

Sl. No.	Name
1.	Shri A Jeyaraj
2.	Shri Rajeev Gupta

J.K. Khadwal
Jt. Dir. (Pers)

ARMY BRANCH

No. 257, dated 20 March. 03—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

Infantry

The Dogra Regiment

To be Sub Maj.

Sub Onkar Singh Kanwar (JC-518351 A), 01st Oct. 2002

To be Sub

Nb Sub Karan Singh (JC-518988K), 04th Dec 2002

*(Granted seniority in the rank of Subedar with effect from 01st June 2002 without effect on Pay & Allowances.)

Nb Sub Hem Raj (JC-518976 P), 01st Sep. 2002

Nb Sub Hans Raj (JC-519044 P), 01st Sep. 2002

Nb Sub Romesh Chander (JC-519048 L), 20th Oct. 2002

Nb Sub Jagir Singh (JC-519065 L), 22nd Oct. 2002

Nb Sub Sudershan Kumar (JC-518977 X), 01st Nov. 2002

Nb Sub Damodar Dass Katwal (JC-518999 W), 01st Nov. 2002

Nb Sub Bhola Nath Sharma, SM (JC-519049 N), 01st Nov. 2002

To be Sub (Musn)

Nb Sub (Musn) Vijay Singh (JC-519184 F), 31st May 2002*

*(Granted seniority in the rank of Subedar (Musn) with effect from 01st Apr 2002 without effect on Pay & Allowances.)

To be Sub Maj

Sub Rajinder Singh (JC-518119 P), 7th Dec 2002*

*(Granted seniority in the rank of Subedar Major with effect from 1st Dec 2002 without effect on Pay and Allowances.)

Sub Yashpal Singh (JC-518333 X), 1st Jan 2003

To be Sub

Nb Sub Chain Singh (JC-519179 W), 1st Aug 2002

Nb Sub Nikka Ram (JC-519191 X), 1st Aug 2002

Nb Sub Bishan Dass (JC-518991 K), 20th Jan 2003*

*(Granted seniority in the rank of Subedar with effect from 1st Sep 2002 without effect on Pay & Allowances.)

Nb Sub Ram Krishan (JC-478640 K), 1st Sep 2002

Nb Sub Surinder Singh (JC-498633 P), 1st Sep 2002

Nb Sub Hari Singh (JC-519164 N), 1st Sep 2002

Nb Sub Sansar Chand (JC-519177 L), 1st Oct 2002

To be Sub Maj (Clk)

Sub Clk Rattan Lal (JC-518269 L), 5th June 2002*

*(Granted seniority in the rank of Subedar Major (Clerk) with effect from 1st June 2002 without effect on Pay & Allowances.)

THE GRENADIERS

To be Nb Sub

Hav Gaje Singh (No.2670778A now JC-449363F), 1st Dec 2002*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Feb 2001 without effect on Pay and Allowances)

Hav Shatrughna Singh (No. 2672656P now JC-449364K), 1st Jul 2002

Hav Faiju Khan (No.2671327M now JC-449365M), 15th Sep 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2002 without effect on pay and allces)

Hav Manwar Ali (No. 2676134W now JC-449366P), 25th Jul 2002

Hav Ghanshyam Singh (No.2674601K now JC-449367X), 2nd Oct 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Aug 2002 without effect on pay and allces)

Hav Sarif Khan (No.2675853H now JC-449368A), 18th Sep 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Sep 2002 without effect on pay and allces)

Hav Samsher Singh (No. 2671342F now JC-449369H), 14th Oct 2002

Hav Rohtash Kumar (No.2679378P now JC-449370X), 1st Nov 2002

Hav Ajit Singh (No.2673219F now JC-449395K), 10th Jun 2002

Hav Ispak Ahmed (No.2670641N now JC-449396M), 1st Jan 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2002 without effect on pay and allces)

Hav Ajit Singh (No. 2674109Y now JC-449397P), 1st Sep 2002

Hav Berander Singh Verma (No.2677413N now JC-449398X), 8th Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allces)

Hav Ahmed Khan (No. 2670862A now JC-449399A), 1st Nov 2002

Hav Bhagirath Singh Mund (No.2677262A now JC-449400K), 21st Jan 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Nov 2002 without effect on pay and allces)

Hav Friyad (No.2673103L now JC-449401M), 1st Dec 2002

Hav Ram Niwas (No.2671281P now JC-449402P), 5th Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allces)

Hav Phool Mohammed (No.2676060M now JC-449403X), 8th Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allces)

Hav Bhanwar Ali (No 2676197Y now JC-449404A), 22nd Dec 2002

Hav Ramji Singh (No.2670980N now JC-449405H), 22nd Feb 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allces)

Hav Ummed Singh Jakhar (No.2683365P now JC-449406L), 1st Feb 2003

Hav Kuldeep Singh (No.2680332Y now JC-449407N), 1st Feb 2003

Hav Shishupal Singh (No.2670944H now JC-449408W), 1st Feb 2003

To be Nb Sub (Clk)

Hab/Clk Hamid Khan (No. 2671716M now JC-449409Y), 1st Jan 2003

THE MADRAS REGIMENT

To be Subedar

Nb Sub Uthaiyah NB (JC-438759L), 27th Aug 2002

Nb Sub TM Bharath (JC-438765Y), 27th Aug 2002

Nb Sub R Manickavel (JC-438773X), 1st Sep 2002

Nb Sub Somanathan PK (JC-438796Y), 17th Sep 2002

Nb Sub Babu M (JC-438813N), 17th Sep 2002

Nb Sub Shrishailappa Hasabi (JC-438882K), 17th Sep 2002

Nb Sub Lalu TP (JC-438925N), 17th Sep 2002

Nb Sub Raghunathan TV (JC-438771M), 1st Oct 2002

THE MAHAR REGIMENT

To Be Subedar Clerk (GD)

Naib Sub Clk (GD) Kamaljit Singh (JC-568617X), 27 Dec 2002@

@(Gtd Seniority wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allces.)

Naib Sub Clk (GD) Samsuddin Gauri (JC-568618A), 08 Jan 2003#

#(Gtd Seniority wef 01 Jan 2003 without effect on pay and allces.)

THE MADRAS REGIMENT

To be Subedar

Nb Sub Kumara Swamy (JC-438837X), 1st Sep 2002

Nb Sub Suresh Kumar PR (JC-438772P), 1st Dec 2002

Nb Sub Shaik Khadar Vali (JC-438851K), 1st Dec 2002

Nb Sub Rajendran Nair MM (JC-438852M), 1st Dec 2002

Nb Sub M Varadharaj (JC-439011W), 6th Dec 2002

Nb Sub A Sundararaj (JC-438705K), 19th Dec 2002

Nb Sub N Panner Selvam (JC-438307H), 1st Jan 2003

Nb Sub Shaik Jamal Vali (JC-438580X), 1st Jan 2003

Nb Sub D Krishnan (JC-438886A), 1st Jan 2003

THE GARHWAL RIFLES

To be Sub

Nb Sub Satish Chandra Kandwal (JC-528682P), 01st Jun 2002

Nb Sub Raje Singh (JC-528777P), 01st Jun 2002

Nb Sub Raghubir Singh (JC-528887K), 01st Jun 2002

Nb Sub Sampuran Singh (JC-528554X), 01st Jul 2002

Nb Sub Balbir Singh (JC-528708Y), 01st Jul 2002

Nb Sub Vikram Singh (JC-528714M), 01st Jul 2002

Nb Sub Ramesh Chand (JC-528747X), 01st Jul 2002

Nb Sub Sudarshan Singh (JC-528943X), 01st Jul 2002

Nb Sub Mohan Singh Negi (JC-529017Y), 01st Jul 2002

Nb Sub Vinod Singh (JC-528725Y), 01st Aug 2002
 Nb Sub Sate Singh (JC-528758K), 01st Aug 2002
 Nb Sub Kundan Singh (JC-528944A), 01st Aug 2002
 Nb Sub Kedar Singh (JC-528793M), 01st Aug 2002
 Nb Sub Mahabir Singh (JC-528916N), 01st Aug 2002
 Nb Sub Balendra Singh (JC-528799N), 01st Aug 2002
 Nb Sub Bharat Singh (JC-528814X), 01st Aug 2002
 Nb Sub Balbir Singh (JC-528815A), 01st Aug 2002
 Nb Sub Satyapal Singh (JC-528833H), 01st Aug 2002
 Nb Sub Mohan Singh (JC-528836W), 01st Aug 2002
 Nb Sub Ramesh Chandra (JC-528919A), 01st Aug 2002
 Nb Sub Ramesh Chandra (JC-528870W), 01st Aug 2002
 Nb Sub Mohan Singh (JC-529034Y), 27th Aug 2002
 Nb Sub Faurya Lal (JC-528726F), 01st Sep 2002
 Nb Sub Dhan Singh (JC-528673N), 01st Sep 2002
 Nb Sub Budhi Lal (JC-528721F), 01st Sep 2002
 Nb Sub Darshan Singh (JC-528722K), 01st Sep 2002
 Nb Sub Pitambar Dutt (JC-528727K), 01st Sep 2002
 Nb Sub Ajay Singh (JC-528729P), 01st Sep 2002
 Nb Sub Ramesh Chand (JC-528807F), 01st Sep 2002
 Nb Sub Bhajan Singh (JC-528769W), 01st Sep 2002
 Nb Sub Kirti Ram (JC-528809M), 01st Sep 2002
 Nb Sub Jagat Singh (JC-528798L), 01st Sep 2002
 Nb Sub Diwan Singh (JC-528820L), 01st Sep 2002
 Nb Sub Hayat Singh (JC-528805W), 01st Sep 2002
 Nb Sub Geeta Singh (JC-528837Y), 01st Sep 2002
 Nb Sub Darmiyan Singh (JC-528852N), 01st Sep 2002
 Nb Sub Khushal Singh (JC-528853W), 01st Sep 2002
 Nb Sub Kanta Prasad (JC-528955M), 01st Sep 2002
 Nb Sub Bir Singh (JC-528940K), 01st Sep 2002

TO BE SUB (CLK)

Nb Sub (Clk) Puran Singh (JC-528506X), 01st Nov 2002
 Nb Sub (Clk) Uma Nand Balodi (JC-528526L), 01st Nov 2002

TO BE SUB (RT)

Nb Sub (RT) Suresh Chandra Joshi (JC-144223M), 07th Dec 99

Nb Sub (RT) Ganesh Chander Khanduri (JC-161902A), 07th Dec 99

Nb Sub (RT) Mathura Prasad (JC-528016K), 01st Nov 2002

Nb Sub (RT) Shri Dhar Dwivedi (JC-528017M), 01st Nov 2002

THE PARACHUTE REGIMENT

TO BE SUBEDAR MAJOR

Sub Ramvir Singh (JC-210916M), 01 Nov 2002

TO BE SUBEDAR MAJOR (CLERK)

Sub (Clk) Sasidharan V (JC-412042), 01 Dec 2002

TO BE SUBEDAR

Nb Sub Charan Singh (JC-412465A), 01 Oct 2002

Nb Sub Diljeet Singh (JC-412537Y), 01 Oct 2002

Nb Sub Dalip Singh (JC-412482A), 06 Oct 2002

Nb Sub Bhim Singh Raizada (JC-412483H), 06 Oct 2002

Nb Sub Subodh Kumar Singh (JC-412421H), 01 Nov 2002

Nb Sub Khaba Ram, SM (JC-412315K), 01 Nov 2002

Nb Sub Himmat Nath (JC-412339N), 01 Nov 2002

Nb Sub Satnam Singh (JC-412487Y), 01 Dec 2002

Nb Sub Satyabir Singh (JC-412422L), 01 Dec 2002

Nb Sub Jaisi Ram (JC-412326P), 01 Dec 2002

TO BE SUBEDAR (CLERK)

Nb Sub (Clk) Tilak Raj Kumar Awasthi (JC-412350M), 01 Dec 2002

To be Nb Sub

Hav Loon Karan, SM (No. 13614408F now JC-412729W), 19 Oct 2002*

*GTD seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Aug 2002 without effect on pay and allowances.

Hav Bhika Ram Choudhary (No. 13614410Y now JC-412730L), 19 Oct 2002*

*GTD seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Aug 2002 without effect on pay and allowances.

Hav Rachhapal Singh (No. 13612926H now JC-412732W), 30 Sep 2002*

*GTD seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Sep 2002 without effect on pay and allowances.

Hav Jashpal Singh (No. 13613373K now JC-412733Y), 08 Nov 2002*

*GTD seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Sep 2002 without effect on pay and allowances.

Hav Darban Singh Negi (No. 13614295K now JC-412734F), 21 Nov 2002*

*GTD seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Sep 2002 without effect on pay and allowances.

Hav Ramesh Datt (No. 13614487F now JC-412735K), 21 Nov 2002*

*GTD seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Sep 2002 without effect on pay and allowances.

Hav Inder Paul Vidyarthi (No. 13614848P now JC-412736M), 19 Oct 2002*

*GTD seniority in the rank of Nb Sub wef 13 May 2002 without effect on pay and allowances.

Hav Jai Bahadur (No. 13617742N now JC-412737P), 30 Sep 2002*

*GTD seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Sept 2002 without effect on pay and allowances.

Hav Ram Singh (No. 13612521X now JC-412740P), 07 Dec 2002*

*GTD seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allowances.

Hav Shri Kishan (No. 13613315A now JC-412741X), 07 Dec 2002*

*GTD seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allowances.

Hav Mandhir Singh (No. 13613789F now JC-412742A), 01 Oct 2002

Hav Jai Ram Singh (No. 13614756H now JC-412743H), 01 Sep 2002

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Basant Kumar Mishra (No. 13616929N now JC-412731N), 21 Oct 2002*

*GTD seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sept 2002 without effect on pay and allowances.

Hav (Clk) C V Dineshan (No. 13613084P now JC-412738X), 01 Dec 2002

To be Nb Sub (Musn)

Hav (Musn) Ram Singh Katrolia (No. 13613879H now JC-412739A), 10 Oct 2002

11GR

To be Subedar

JC-634231A Nb Sub Christopher Subba 6/11 GR, 20.12.2002@

@Gtd Seniority w/o effect on pay and allowances wef 01.11.2002.

JC-634235W Nb Sub Mohan Rai 6/11 GR, 21.12.2002&

&Gtd Seniority w/o effect on pay and allowances wef 01.11.2002.

JC-634278L Nb Sub Tok Bahadur Rai 2/11 GR, 07.01.2003*

*Gtd Seniority w/o effect on pay and allowances wef 09.12.2002.

JC-634285F Nb Sub Pradip Kumar Limbu 2/11 GR, 07.01.2003**

**Gtd Seniority w/o effect on pay and allowances wef 01.01.2003.

To be Subedar Major

Sub Deepak Jang Thapa (JC-168957M), 01.07.2002

Sub Kamal Kumar Rai (JC-202146W), 01.09.2002

To be Subedar

Nb Sub Bharat Kumar Rai (JC-634260P), 30.06.2002@

@Gtd seniority w/o effect on pay and allice wef 01.05.2002

Nb Sub Indra Bahadur Tamang (JC-634323M), 26.07.2002@

@Gtd seniority w/o effect on pay and allice wef 01.05.2002

Nb Sub Dhan Bahadur Limbu (JC-634281L), 18.10.2002@

@Gtd seniority w/o effect on pay and allice wef 01.06.2002

Nb Sub Amir Rai (JC-634122N), 23.10.2002@

@Gtd seniority w/o effect on pay and allice wef 01.07.2002.

Nb Sub Bal Prasad Rai (JC-634195A), 23.10.2002@

@Gtd seniority w/o effect on pay and allice wef 01.07.2002

Nb Sub Han Bir Rai (JC-634229N), 15.11.2002@

@Gtd seniority w/o effect on pay and allice wef 01.08.2002

Nb Sub Jit Bahadur Rai (JC-634230X), 26.11.2002@

@Gtd seniority w/o effect on pay and allice wef 01.09.2002

Nb Sub Prahlad Mani Rai (JC-634353K), 01.09.2002

Nb Sub (RT) Jagan Nath Guragain (JC-634004A), 18.11.2002@

@Gtd seniority w/o effect on pay and allice wef 01.11.2002

Nb Sub Gopal Tamang (JC-634360A), 01.12.2002

THE KUMAON REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Harish Chandra (JC-178062F), 01 Jul 2000

Sub Narain Singh Shahi (JC-184417X), 01 Mar 2001

Sub Satyanarain Singh (JC-219747X), 03 Feb 2002/01 Feb 2002*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef 01Feb 2002.

Sub Hoshjar Singh (JC-212679M), 01 Feb 2002

Sub Channi Chand (JC-196555L), 04Mar 2002/01 Mar 2002*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef 01Mar 2002.

Sub Harish Singh (JC-205226Y), 31 Jul 2002/15 Jul 2002*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef 15 Jul 2002.

Sub Dharam Pal Yadav (JC-216614W), 21 Jul 2002/15 Jul 2002*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef 15 Jul 2002.

THE NAGA REGIMENT

Sub KH Worshu Chothe (JC-148473L), 01 Jun 2000

THE KUMAON REGIMENT

To be Subedar

Nb Sub Indra Singh (JC-538523L), 07 Sep 2001/14 Aug 2001*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 14 Aug 2001.

Nb Sub Dan Singh (JC-538524N), 30 Jan 2002/01 Sep 2001*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2001.

Nb Sub Narendra Singh (JC-538525W), 28 Jun 2002/01 Jun 2002*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2002.

Nb Sub Sher Singh (JC-538688K), 28 Jun 2002/01 Jun 2002*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2002.

Nb Sub Manohar Singh (JC-538689M), 03 Jul 2002/01 Jun 2002*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2002.

Nb Sub Dev Singh, SM (JC-538786K), 03 Jul 2002/01 Jun 2002*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2002.

Nb Sub Harish Chand (JC-538876L), 20 Sep 2002/01 Sep 2002*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2002.

Nb Sub Govind Singh (JC-538888A), 20 Sep 2002/01 Sep 2002*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2002.

Nb Sub Yaswant Singh (JC-538939H), 20 Sep 2002/01 Sep 2002*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2002.

5—34 GI/2003

Nb Sub Darpan Singh (JC-538940K), 29 Oct 2002/01 Sep 2002*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2002.

Nb Sub Mangal Singh Karakoti (JC-538587W), 19 Oct 2001/01 Oct 2001*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2001.

Nb Sub Chanchal Singh (JC-538589F), 05 Jun 2000

Nb Sub Naresh Chandra Kumar (JC-538590P), 09 Oct 2000/13 Jul 2000*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 13 Jul 2000.

Nb Sub Puran Singh (JC-538591X), 17 Jan 2002/01 Jan 2002*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2002.

Nb Sub Trilok Singh (JC-538639F), 01 May 2002

Nb Sub Karan Singh Dhami (JC-538698N), 29 Jun 2002/01 Jun 2002*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2002.

Nb Sub Anand Singh Mahar (JC-538699W), 17 Jul 2002/01 Jul 2002*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2002.

Nb Sub Dalip Singh (JC-538700A), 22 Aug 2002/01 Jul 2002*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2002.

Nb Sub Bishan Singh (JC-538749M), 06 Oct 2002/01 Sep 2002*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2002.

Nb Sub Mohan Singh Bisht (JC-538750L), 01 Sep 2002

Nb Sub Diwan Singh Bora (JC-538736Y), 21 Sep 2002/01 Sep 2002*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2002.

Nb Sub Sher Singh Mehta (JC-538737F), 23 Sep 2002/01 Sep 2002*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2002.

Nb Sub Dan Singh (JC-538165L), 25 Sep 2002/01 Aug 2002*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 01

Aug 2002.

Nb Sub (Cik) Manohar Singh Rautela (JC-538617H), 17 Sep 2002/01 Sep 2002*

*Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2002.

(THE MAHAR REGIMENT)

TO BE SUBEDAR CLERK (GD)

Naib Sub Cik (GD) Sinay Kumar Mishra (JC-568582M), 25 Nov 2002@

@Gtd Seniority wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces.

THE SIKH REGIMENT

TO BE SUBEDAR MAJOR

Sub Makhan Singh (JC-192612K), 01 Dec 02

To be Subedar Major Religious Teachers

Sub (RT) Nirvail Singh (JC-75137N), 01 Mar 2000

Sub (RT) Harcharan Singh (JC-77036X), 01 Jan 2001

To be Subedars

Nb Sub Rajender Singh (JC-498555H), 01 Apr 01

Nb Sub Surjit Singh (JC-498181X), 18 Apr 01

Nb Sub Baldev Singh (JC-498248L), 01 Jul 01

Nb Sub Darshan Singh (JC-498580F), 01 Jul 01

Nb Sub Karnail Singh (JC-498613F), 01 Sep 01

Nb Sub Jaswinder Singh (JC-498233H), 04 Dec 01

Nb Sub Angrej Singh (JC-498617X), 01 Jan 02

Nb Sub Didar Singh (JC-498667H), 01 Jan 02

Nb Sub Randhir Singh (JC-498668L), 17 Apr 02

Nb Sub Balkaran Singh (JC-498718L), 18 Apr 02

Nb Sub Jaswant Singh (JC-498769Y), 01 May 02

Nb Sub Nahar Singh (JC-498782H), 20 May 02@

@Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 02 without effect on pay & allces.

Nb Sub Malkiat Singh (JC-498821W), 01 Jun 02

Nb Sub Salinder Singh (JC-498822Y), 12 Jun 02

Nb Sub Jang Singh (JC-498844X), 01 Aug 02

Nb Sub Gurjant Singh (JC-498847L), 10 Aug 02

Nb Sub Shabjinder Singh (JC-498785W), 01 Jan 03#

#Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 02 without effect on pay & allces.

Nb Sub Nirvail Singh (JC-498706W), 10 Nov 02\$

\$Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 02 without effect on pay & allces.

Nb Sub Dildhar Singh (JC-498707Y), 01 Dec 02

Nb Sub Jaswinder Singh (JC-498886K), 01 Dec 02

To be Subedar Major

Sub Satnam Singh (JC-184378K), 01 Oct 02

To be Subedar Major Clerk

Sub Cik Kashmir Singh (JC-220986Y), 02 Dec 02@

@Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj Cik wef 01 Aug 02 without effect on pay and allces.

To be Subedar

Nb Sub Amrik Singh (JC-498646M), 01 Sep 02

To be Subedar Major

Sub Sucha Singh (JC-192420M), 16 Dec 02@

@Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Oct 02 without effect on pay and allces.

To be Subedars

Nb Sub Parmjit Singh (JC-498787F), 01 Jun 02

Nb Sub Ram Singh (JC-498809P), 01 Jun 02

Nb Sub Bohar Singh (JC-498849W), 06 Aug 02#

#Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Jun 02 without effect on pay and allces.

Nb Sub Harjinder Singh (JC-498876A), 01 Jun 02

Nb Sub Thana Singh (JC-498890M), 01 Jun 02

Nb Sub Ranjit Singh (JC-498891P), 03 Jun 02\$

\$Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Jun 02 without effect on pay and allces.

Nb Sub Mukhtiar Singh (JC-498922K), 01 Oct 02

Nb Sub Dhanvir Singh (JC-498928L), 12 Oct 02

Nb Sub Harbans Singh (JC-498708F), 18 Dec 02%

%Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 02 without effect on pay and allces.

Nb Sub Gurdip Singh (JC-498794A), 06 Nov 02*

*Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 02 without effect on pay and allces.

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-498929N), 01 Feb 03

To be Subedar Clerks

Nb Sub Cik Sikandar Lal (JC-498591N), 01 Aug 02

Nb Sub Cik Kulwant Singh (JC-498599A), 01 Sep 02

The Jat Regt

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Hariniwas Dwivedi (JC-489253P), 30 Nov 2002

To be Sub

Nb Sub Jai Pal Singh (JC-488583F), 01 Sep 2001

Nb Sub Om Prakash (JC-488620K), 01 Sep 2001

Nb Sub Surja Ram (JC-488628W), 09 Oct 2001*

*Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2001 without effect on pay and allowances.

Nb Sub Jagbir Singh Phogat (JC-488629Y), 01 Sep 2001

Nb Sub Tejbir Singh (JC-488630N), 01 Sep 2001

Nb Sub Banwari Lal (JC-488633F), 01 Sep 2001

Nb Sub Birma Ram (JC-488636P), 01 Sep 2001

Nb Sub Ram Deo Jat (JC-488675N), 01 Apr 2002@

@Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2001 without effect on pay and allowances.

Nb Sub Deep Chand (JC-488676W), 01 Sep 2001

Nb Sub Mange Ram (JC-488664F), 01 Sep 2001

Nb Sub Bani Singh (JC-488669A), 30 July 2002*

*Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2001 without effect on pay and allowances.

Nb Sub Barhma Nand (JC-488670P), 21 Sep 2001@

@Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2001 without effect on pay and allowances.

Nb Sub Ran Singh (JC-488671X), 11 Apr 2002£

£Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2001 without effect on pay and allowances.

Nb Sub Zile Singh (JC-488631W), 02 Sep 2001

Nb Sub Hari Pal Singh (JC-488713Y), 06 Sep 2001

Nb Sub Rajbir Singh (JC-488485F), 20 Sep 2001

Nb Sub Vijay Singh (JC-488632Y), 21 Sep 2001

Nb Sub Dharambir Singh (JC-488692N), 03 Dec 2001*

*Granted seniority in the rank of Sub wef 22 Sep 2001 without effect on pay and allowances.

Nb Sub Balwan Singh (JC-488488P), 05 Oct 2001

Nb Sub Murari Lal (JC-488490M), 01 Nov 2001

Nb Sub Rameshwar Singh (JC-488681F), 27 May 2002@

@Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2001 without effect on pay and allowances.

Nb Sub Om Prakash (JC-488644N), 01 Nov 2001

Nb Sub Ravindra Singh (JC-488690H), 01 Nov 2001

Nb Sub Gulzari Lal (JC-488729K), 09 Nov 2001£

£Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2001 without effect on pay and allowances.

Nb Sub Ramvir Singh (JC-488731F), 01 Nov 2001

Nb Sub Manmohan Singh (JC-488790N), 03 Apr 2002*

*Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2001 without effect on pay and allowances.

Nb Sub Mohinder Singh (JC-488804H), 01 Feb 2002@

@Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2001 without effect on pay and allowances.

Nb Sub Mahesh Singh (JC-488806N), 04 Dec 2001£

£Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2001 without effect on pay and allowances.

Nb Sub Dharmvir (JC-488547W), 28 May 2002*

*Granted seniority in the rank of Sub wef 14 Nov 2001 without effect on pay and allowances.

Nb Sub Jai Narain (JC-488559L), 14 Nov 2001

SPECIAL LIST

THE RAJPUT REGIMENT

To be Sub Maj (Religious Teacher)

Sub (RT) Ramendra Nath Tripathi (JC-82842P), 01 Feb 2002

To be Sub (Religious Teacher)

Nb Sub (RT) Shiv Kumar Joshi (JC-158230N), 01 May 96

Nb Sub (RT) Krishan Gopal Sharma (JC-212466Y), 01 May 2001

Nb Sub (RT) Samsuddin Mahammad Younas (JC-220846M), 01 Jul 2001

Nb Sub (RT) Ganesh Prasad Mishra (JC-224158L), 01 Jul 2001

Nb Sub (RT) Parma Nand Nagendra (JC-220845K), 01 Feb 2002

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Dharmendra Nath Chaturvedi (JC-479131X), 25 Jul 2002

Abhimanyu Dubey (JC-479132A), 25 Jul 2002

JAK LI

To be Substantive Subedar Major Clerks

Sub (Clk) Ab Rashid Pry (JC-202140P), 01 Jan 2003

To be Substantive Subedar Religious Teacher

Sub (RT) Manoj Kumar Rai (JC-592039M), 01 Nov 2002

To be Substantive Subedars (GD)

Nb Sub Pritam Lal (JC-592669M), 03 Jan 2002

Nb Sub Om Singh (JC-592706P), 01 Jun 2002

Nb Sub Mohd Rashid (JC-592729W), 01 Oct 2002

To be Naib Subedar (Religious Teachers)

Rect (RT) Chataresh Kumar Dwivedi (JC-592837A), 04 Feb 2002

THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Gajendra Pratap Mishra (JC-469215X), 02 Aug 2002

Dharmendra Kumar Tiwari (JC-469216A), 02 Aug 2002

To be Substantive Subedars

Nb Sub Jagdish Singh (JC-468705Y), 01 Sep 2002

Nb Sub Raghubir Singh (JC-468448M), 01 Aug 2000

Nb Sub Sujan Singh Shekhawat (JC-468374H), 17 Jul 2001

Nb Sub Mangu Singh (JC-468383K), 23 Aug 2001

Nb Sub Gopal Singh Shekhawat (JC-468556W), 01 Sep 2001

Nb Sub Pratap Singh (JC-468497P), 01 Oct 2001

Nb Sub Ranchhor Singh (JC-468557Y), 12 Oct 2001

Nb Sub Ravindra Kumar Rana (JC-468610Y), 01 Nov 2001

Nb Sub Narendra Singh Rathore (JC-468626K), 12 Dec 2001

Nb Sub Sumer Singh (JC-468648H), 01 Jan 2002

Nb Sub Rajvir (JC-468743P), 18 Feb 2002

Nb Sub Bhagwan Sahai Jat (JC-468587W), 01 May 2002

Nb Sub Sawai Singh Rathore (JC-468745A), 01 Jul 2002

Nb Sub Bhur Singh (JC-468747L), 01 Oct 2002

Nb-Sub Sanwar Mal Dular (JC-468627M), 01 Nov 2002

9 GR

To be Subedar Clerk

Nb Sub Narsingh Verma (JC-629200W), 08 Oct 2001/01 Sep 2001*

Nb Sub Mukh Ram Yadav (JC-629262W), 01 Dec 2002

To be Subedar Major

Sub Lekh Bahadur Chhetri (JC-211418M), 01 Nov 2001

Sub Suresh Bahadur Mall (JC-629005Y), 12 Apr 2002/01 Dec 2001*

Sub Ramu Chhetri (JC-208467K), 11 May 2002/01 May 2002*

Sub Netra Bahadur Sahi (JC-224334X), 01 Nov 2002

Sub Chet Bahadur Chhetri (JC-629055K), 01 Jan 2003

Sub Sher Bahadur Khadka (JC-629052W), 02 Jan 2003/01 Jan 2003*

Sub Ram Chandra Khadka Chhetri (JC-629067Y), 01 Jan 2003

To be Subedar

Nb Sub Sher Bahadur Karki (JC-629314F), 04 Dec 2002/01 Nov 2002*

Nb Sub Ghan Bahadur GC (JC-629318X), 04 Dec 2002/01 Nov 2002*

Nb Sub Sher Bahadur (JC-629319A), 01 Nov 2002

Nb Sub Shyam Bahadur Chhetri (JC-629399H), 01 Nov 2002

Nb Sub Mahendra Singh Thakur (JC-629404H), 01 Nov 2002

Nb Sub Rajender Mall (JC-629315K), 27 Dec 2002/01 Dec 2002*

Nb Sub Prem Bahadur Chhetri (JC-629380P), 22 Jan 2003/01 Dec 2002*

Nb Sub Dil Bahadur Khattri (JC-629377K), 01 Sep 2002

Nb Sub Kishan Bahadur Chhetri (JC-629394K), 01 Sep 2002

Nb Sub Khim Bahadur Malla (JC-629300F), 30 Oct 2002/01 Oct 2002*

Nb Sub Tek Bahadur Chhetri (JC-629360W), 08 Oct 2002/01 Oct 2002*

Nb Sub Nabin Kumar Nirola (JC-629401P), 01 Oct 2002

Nb Sub Min Bahadur KC (JC-629393F), 07 Dec 2002/01 Oct 2002*

Nb Sub Durga Bahadur Chhetri (JC-629397X), 17 Jul 2002/01 Jul 2002*

Nb Sub Jhalak Bahadur Khattri (JC-629376F), 01 Aug 2002

Nb Sub Prem Bahadur Chhetri (JC-629389Y), 31 Oct 2002/01 May 2002*

Nb Sub Kamal Bahadur Adhikari (JC-629392Y), 31 Oct 2002/01 Aug 2002*

Nb Sub Kharka Man Chhetri (JC-629357W), 01 Sep 2002

Nb Sub Krishna Bahadur Malla (JC-629396P), 11 Oct 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub Salig Ram Khadka (JC-629348F), 07 Jun 2002/01 May 2002*

Nb Sub Tej Bahadur KC (JC-629375Y), 01 May 2002

Nb Sub Chandra Bahadur Chhetri (JC-629306H), 25 Oct 2002/14 May 2002*

Nb Sub Rajendra Khatri Chhetri (JC-629390N), 04 Jul 2002/24 May 2002*

Nb Sub Ser Bahadur Thakuri (JC-629385H), 17 Jul 2002/01 Jun 2002*

Nb Sub Hom Bahadur Chhetri (JC-629395M), 17 Jul 2002/01 Jul 2002*

Nb Sub Amar Bahadur Thakuri (JC-629347M), 13 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Damodar Prasad Mall (JC-629374W), 01 Apr 2002

Nb Sub Krishna Bahadur Lamichhane (JC-629388W), 22 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Gopal Bahadur Chhetri (JC-629366X), 01 May 2002

Nb Sub Dan Bahadur Bhujel (JC-629383X), 14 Jun 2002/01 May 2002*

Nb Sub Ratna Bahadur Thapa (JC-629367K), 01 May 2002

Nb Sub Ratna Bahadur Chhetri (JC-629381M), 21 Mar 2002/01 Feb 2002*

Nb Sub Yadu Nath Pande Chhetri (JC-629370A), 04 Feb 2002/01 Feb 2002*

Nb Sub Vinod Kumar Khattri (JC-629382K), 25 Mar 2002/01 Feb 2002*

Nb Sub Man Bahadur Gharti (JC-629359M), 13 Mar 2002/09 Mar 2002*

Nb Sub Thir Bahadur Chhetri (JC-629386L), 27 Mar 2002/01 Mar 2002*

Nb Sub Yak Bahadur Thapa (JC-629387N), 21 Mar 2002/01 Mar 2002*

Nb Sub Gopal Prasad Dhakal (JC-629340H), 06 Jan 2002/01 Jan 2002*

Nb Sub Min Bahadur Khatri (JC-629341L), 10 Jan 2002/01 Jan 2002*

Nb Sub Bhim Bahadur Chhetri (JC-629342N), 16 Jan 2002/01 Jan 2002*

Nb Sub Ganesh Bahadur Chhetri (JC-629363K), 15 Feb 2002/01 Jan 2002*

Nb Sub Khagendra Bahadur Dhakal Chhetri (JC-629364M), 04 Jan 2002/01 Jan 2002*

Nb Sub Lal Bahadur Thapa (JC-629349X), 01 Feb 2002

Nb Sub Rattan Kumar Chhetri (JC-629334P), 02 Feb 2002/01 Jan 2002*

Nb Sub Hari Bahadur Chhetri (JC-629326W), 09 Jan 2002/01 Jan 2002*

Nb Sub Hum Bahadur Basnet Chhetri (JC-629336A), 02 Feb 2002/01 Jan 2002*

Nb Sub Narayan Bahadur Chhetri (JC-629343W), 06 Feb 2002/01 Jan 2002*

Nb Sub Kul Bahadur Chhetri (JC-629344X), 12 Feb 2002/01 Jan 2002*

Nb Sub Bhagat Kumar Parsai (JC-629339N), 31 Jan 2002/01 Jan 2002*

Nb Sub Karna Bahadur Shahi (JC-629352X), 14 Jan 2002/01 Nov 2001*

Nb Sub Sher Bahadur Thapa (JC-629310L), 11 Feb 2002/01 Dec 2001*

Nb Sub Mahendra Bahadur Adhikary (JC-629311N), 01 Sep 2002/01 Jan 2002*

Nb Sub Deb Bahadur Chhetri (JC-629305A), 01 Jan 2002

Nb Sub Til Bahadur Thakuri (JC-629320P), 09 Jan 2002/01 Jan 2002*

Nb Sub Krishna Bahadur Chhetri (JC-629333M), 14 Feb 2002/01 Jan 2002*

Nb Sub Ran Bahadur Khattri (JC-629317P), 30 Oct 2001/01 Oct 2001*

Nb Sub Surendra Singh Thapa (JC-629324L), 04 Mar 2002/01 Oct 2001*

Nb Sub Khum Bahadur Thapa Chhetri (JC-629338L), 01 Oct 2001

Nb Sub Nirmal Thapa (JC-629346K), 25 Jan 2002/01 Oct 2001*

Nb Sub Jang Bahadur (JC-629350M), 24 Apr 2002/01 Oct 2001*

Nb Sub Ram Bahadur Chand Thakuri (JC-629351P), 14 Dec 2001/07 Oct 2001*

*Granted notional seniority

3 GR

To be Subedar

Nb Sub Chandra Bahadur Rana (JC-607342N), 14 Nov 2002/01 May 2002*

Nb Sub Mohan Prasad Gurung (JC-607264F), 27 Jul 2002/01 Jul 2002*

Nb Sub Hari Prasad Rana (JC-607290H), 06 Jul 2002/01 Jul 2002*

Nb Sub Jhapindra Bahadur Thapa (JC-607341L), 27 Oct 2002/01 Jul 2002*

Nb Sub Kul Prasad Pradhan (JC-607302M), 09 Jul 2002/01 Jul 2002*

Nb Sub Shib Bahadur Thapa (JC-607310L), 25 Jul 2002/01 Jul 2002*

Nb Sub Gaj Bahadur Thapa (JC-607294Y), 02 Nov 2001

Nb Sub Purna Bahadur Gurung (JC-607274L), 11 Jan 2002/01 Jan 2002*

Nb Sub Man Singh (JC-607282K), 10 Mar 2002/01 Jan 2002*

Nb Sub Hark Bahadur Thapa (JC-607258N), 11 Feb 2002/01 Jan 2002*

Nb Sub Karna Bahadur Thapa (JC-607284P), 09 Feb 2002/01 Jan 2002*

Nb Sub Shyam Bahadur Thapa (JC-607304X), 04 Jul 2002/01 Jan 2002*

Nb Sub Jag Bahadur Thapa (JC-607298P), 01 Nov 2002

Nb Sub Deb Bahadur Thapa (JC-607305A), 01 Nov 2002

Nb Sub Rekha Singh Gurung (JC-607330Y), 27 Dec 2002/01 Nov 2002*

Nb Sub Tilak Bahadur Thapa (JC-607332K), 25 Dec 2002/29 Nov 2002*

Nb Sub Nawin Tamang (JC-607308N), 01 Dec 2002

Nb Sub Chakra Bahadur Thapa (JC-607348P), 01 Dec 2002*

Nb Sub Noor Bahadur Thapa (JC-607326W), 30 Oct 2002/01 Oct 2002*

Nb Sub Bir Bahadur Ale (JC-607327Y), 30 Oct 2002/01 Oct 2002*

Nb Sub Yub Kumar Gurung (JC-607328F), 30 Oct 2002/01 Oct 2002*

Nb Sub Lal Bahadur Jhedi (JC-607329K), 30 Oct 2002/01 Oct 2002*

Nb Sub Pasu Ram Burathoki (JC-607344Y), 27 Oct 2002/01 Oct 2002*

Nb Sub Dudh Bahadur Gurung (JC-607347M), 21 Dec 2002/01 Oct 2002*

Nb Sub Rum Bahadur Pun (JC-607343W), 27 Oct 2002/01 Oct 2002*

Nb Sub Diwan Singh (JC-607257L), 25 Sep 2002/01 Oct 2002*

Nb Sub Naresh Thapa (JC-607259W), 15 Aug 2002/01 Aug 2002*

Nb Sub Hari Bahadur Thapa (JC-607265K), 1 Aug 2002

Nb Sub Kharka Bahadur Thapa (JC-607272K), 17 Aug 2002/01 Aug 2002*

Nb Sub Yam Bahadur Gurung (JC-607295F), 01 Aug 2002

Nb Sub Ram Bahadur Gurung (JC-607324K), 03 Oct 2002/01 Aug 2002*

Nb Sub Dal Bahadur Rana (JC-607325L), 01 Oct 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub Prem Singh Thapa (JC-607276W), 24 Oct 2002/01 Oct 2002*

Nb Sub Ganesh Prasad Rai (JC-607260L), 01 Oct 2002

Nb Sub Gyan Bahadur Rana (JC-607296K), 24 Oct 2002/01 Oct 2002*

Nb Sub Dil Bahadur Gurung (JC-607311N), 23 Oct 2002/01 Oct 2002*

Nb Sub Sobit Bahadur Thapa (JC-607306X), 11 Sep 2002/01 Jan 2002*

Nb Sub Gir Bahadur Thapa (JC-607321Y), 11 Sep 2002/01 Jan 2002*

Nb Sub Netra Bahadur Thapa (JC-607213N), 10 Feb 2002/01 Feb 2002*

Nb Sub Chet Bahadur Gurung (JC-607233F), 10 Feb 2002/01 Feb 2002*

Nb Sub Gyan Bahadur Pun (JC-607242H), 10 Feb 2002/01 Feb 2002*

Nb Sub Amar Bahadur Pun (JC-607307L), 11 Sep 2002/01 Feb 2002*

Nb Sub Norbu Tshreing Bhotia (JC-607245W), 25 May 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Babu Ram Sharma (JC-607256H), 07 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Man Bir Gurung (JC-607247F), 12 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Raj Bahadur Thapa (JC-607263Y), 12 May 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Dharam Dhoj Gurung (JC-607271X), 19 Aug 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Bhim Raj Gurung (JC-627285X), 20 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Noon Bahadur Gurung (JC-607289X), 01 Apr 2002

Nb Sub Jagat Ram Gurung (JC-607287H), 12 May 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Bidur Thapa (JC-607293W), 12 May 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Damber Bahadur Thapa (JC-607318X), 16 Oct 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Chandra Kumar Tamang (JC-607322A), 22 Oct 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Pradip Kumar Thapa (JC-607331F), 16 Oct 2002/01 Apr 2002*

To be Subedar Major

Sub Pandab Bahadur Gharti (JC-221069F), 01 Oct 2001

Sub Santa Bahadur Khandka (JC-220337N), 01 Nov 2001

Sub Ran Bahadur Pun (JC-202154P), 23 May 2002/01 Apr 2002*

Sub Suk Bahadur Rana (JC-218117L), 01 Apr 2002

Sub Krishna Bahadur Thapa (JC-224490F), 08 Apr 2002/01 Apr 2002*

Sub Yam Bahadur Gurung (JC-607052W), 02 Jul 2002/01 Jul 2002*

Sub Shyam Bahadur Thapa (JC-607082N), 01 Aug 2002
 Sub Em Bahadur Pun (JC-607115N), 01 Oct 2002
 Sub Thag Bahadur Karki (JC-607116W), 22 Oct 2002/01 Oct 2002*

Sub Lal Bahadur Thapa (JC-220835A), 29 Nov 2002

To be Subedar Clerk

Nb Sub Thakur Bahadur Rana Bhat (JC-607190X), 01 Dec 2001/12 Nov 2001*

Nb Sub Rohtas (JC-607216F), 15 Nov 2002/01 Nov 2002*

Nb Sub Subash Chandra (JC-607189H), 03 Sep 2001/01 Sep 2001*

*Granted notional seniority with effect from.

To be Subedar Major (Clerks)

Sub Basu Deo Prasad (JC-224330F), 12 Mar 2002/01 Jan 2002*

SPECIAL LIST

THE PUNJAB REGIMENT

To be Subedar Major

Sub Salig Ram (JC-212818L), 01 Aug 2002

Sub Terlok singh (JC-428098H), 01 Aug 2002

Sub Darshan Singh (JC-203622W), 01 Sep 2002

Sub Jasbir Singh (JC-205007X), 01 Sep 2002

Sub Jarnail Singh (JC-212816A), 01 Oct 2002

Sub Kewal Singh (JC-210927Y), 01 Nov 2002

(To be Subedar Clerks)

Nb Sub Clk Mohan Lal (JC-428644K), 01 Aug 2002

Nb Sub Clk Sarbjeet Singh (JC-428650X), 01 Sep 2002

Nb Sub Clk Kirat Ram Gupta (JC-428651A), 01 Sep 2002

Nb Sub Clk Surjit Singh Chauhan (JC-428678X), 01 Oct 2002

Nb Sub Clk Ravinder Kumar Patial (JC-428679A), 01 Nov 2002

(To be Subedars)

Nb Sub Jagtar Singh (JC-428910X), 01 Dec 2001

Nb Sub Gurcharan singh (JC-428919M), 15 Apr 2002

Nb Sub Ramesh Kumar Chawla (JC-428929W), 01 May 2002

Nb Sub Balbir Singh (JC-428764H), 01 Jun 2002

Nb Sub Jaswinder Paul Singh (JC-428921K), 01 Jun 2002

Nb Sub Karma Singh Sen (JC-428940P), 01 Jun 2002

Nb Sub Thakra Singh (JC-428875A), 01 Jun 2002

Nb Sub Raj Kumar (JC-428969X), 01 Jun 2002

Nb Sub Gurnam Singh (JC-429003K), 01 Jun 2002

Nb Sub Manmeet Singh (JC-429012L), 01 Jun 2002

Nb Sub Balwinder Singh (JC-429013N), 01 Jun 2002

Nb Sub Gopal Singh (JC-429027N), 01 Jun 2002

Nb Sub Vijay Verma (JC-428880L), 16 Jun 2002

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-428581M), 01 Jul 2002

Nb Sub Mohinder Singh (JC-428811P), 01 Jul 2002

Nb Sub Tilak Raj (JC-428441A), 01 Aug 2002

Nb Sub Tara Chand (JC-428565P), 01 Aug 2002

Nb Sub Raj Kumar (JC-428672W), 01 Aug 2002

Nb Sub Desh Raj (JC-428829L), 01 Aug 2002

Nb Sub Vijay Pal (JC-428911A), 01 Aug 2002

Nb Sub Mulk Raj (JC-428816N), 04 Aug 2002

Nb Sub Jaswant Singh (JC-428640N), 01 Sep 2002

Nb Sub Jeet Singh (JC-428747H), 01 Sep 2002

Nb Sub Prithi Chand (JC-428792P), 01 Sep 2002

Nb Sub Gurmit Singh (JC-428760M), 01 Sep 2002

Nb Sub Satnam Singh (JC-428895N), 01 Sep 2002

Nb Sub Birbal Singh (JC-428930L), 01 Sep 2002

Nb Sub Surinder Singh (JC-428980W), 01 Sep 2002

Nb Sub Jaswant Singh (JC-429004M), 01 Sep 2002

Nb Sub Sukhchain Singh (JC-428610W), 01 Oct 2002

Nb Sub surjit Singh (JC-428709M), 01 Oct 2002

Nb Sub Darshan Singh (JC-428762X), 01 Oct 2002

Nb Sub Manjit Singh (JC-428813A), 01 Oct 2002

Nb Sub Jeewan Dass Rana (JC-428863L), 01 Oct 2002

Nb Sub Satish Kumar (JC-428977W), 01 Oct 2002

Nb Sub Partap Singh (JC-428878N), 07 Oct 2002

Nb Sub Harbhajan Singh (JC-428815L), 08 Oct 2002

Nb Sub Sawinder Singh (JC-428951F), 26 Oct 2002

Nb Sub Mohinder Lal (JC-428851W), 01 Nov 2002

Nb Sub Ranjit Singh (JC-428860X), 01 Nov 2002

Nb Sub Dalbir Singh (JC-428904Y), 01 Nov 2002

Nb Sub Baldev Raj (JC-428881N), 01 Dec 2002

Nb Sub Romesh Chand Katoch (JC-428925A), 01 Dec 2002

Diwakar, Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 258. Dated 25 March, 03--The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef. 04-08-2000 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

(REGULAR ARMY)

(PERMANENT COMMISSION)

[To be Capt. (on prob)]

A. Rita Porkodi (MS-13533-F) Now (MR-07595-L), AMC 03-12-1997 with seniority for pay and promotion wef 03-06-1997 (This includes 06 months of antedate of seniority for Hospital Appointment which will count for pension not for gratuity). (MoD Notification published in the Gazette of India dated 05-02-2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

(Mrs) Srinivasan Shoba K. (MS-13104-A) Now (MR-07585-F), AMC, 27-09-96 with seniority for pay and promotion wef 27-09-96 [This includes 12 months antedate for Post Graduate Qualification (Diploma Bacteriology) which will not count for gratuity]. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 09-03-2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 06-12-2000 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

(REGULAR ARMY)

(PERMANENT COMMISSION)

To be Capt (on Prob)

Sanjay Kumar (MS-13352-W)(MR-07771-X), AMC with seniority for pay and promotion wef 04-12-1997. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 17-07-1999 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

To be Capt (Flt Lt) (on Prob)

Padmashri Jain (MS-12583-A)(22480), Now (MR-07661-H), AMC, 30-06-93 with seniority for pay and promotion wef 30-06-91 [This includes 24 months antedate for Post Graduate Qualification MD (Obst & Gyne) which will not count for gratuity.] (MoD Notification published in the Gazette of India dated 12-07-1997 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 24-09-2001 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

(REGULAR ARMY)

(PERMANENT COMMISSION)

To be Capt (on Prob)

Vivek Bharti Sharma (MS-13333-L) (MR-07683-F), AMC, with seniority for pay and promotion wef 10-11-1997 (MoD Notification published in the Gazette of India dated 14-11-1998 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

K.B.N.S. Dod, Brigadier,
Dy. DGAfms (P)

(ARMY BRANCH)

CORRIGENDUM

No. 259. dated 20 March, 03—In M-of D Notification No. 16 dated 21 Apr 2001, published in Gazette of India dated 21 Apr 2001 under heading "REGULAR ARMY" sub heading "INFANTRY" and "THE MAHAR REGIMENT" below "To be No Subedar" at serial No. 208.

Against Hav Ck (GD) Ramphal Singh Tomar (4549475P, now JC-568886K), 01 Sep 2000.

For : Ramphal Singh Tomar

Read : Rampal Singh Tomar

Diwakar, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003